

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23—सितम्बर 29, 2017 (आश्विन 1, 1939)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23—SEPTEMBER 29, 2017 (ASVINA 1, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2017

एयर शाखा

सं. 188, दिनांक 20 जुलाई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं:—

राष्ट्रपति का स्टाफ

623697—आर मास्टर वॉरंट अफसर (रिटायर्ड) अवैतनिक फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट विपिन पांडेय को 24 जून 2016 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवनभर अवैतनिक ए.डी.सी. के रूप में।

624613—एफ मास्टर वॉरंट अफसर (रिटायर्ड) अवैतनिक फ्लाईंग अफसर उपेन्द्र नायक को 24 अप्रैल 2017 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवनभर अवैतनिक ए.डी.सी. के रूप में।

यू के तिवारी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 189, दिनांक 21 जुलाई 2017—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹ 15600—39100/— (पे बैंड—3) + ₹ 5400/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2014AB1042	सुश्री सोनल लुसी	जी टी आर ई, बेंगलूर	01.08.2014
2014AB1019	श्री ओम कुमार राणा	एल आर डी ई, बेंगलूर	01.08.2014
2015AB1076	सुश्री कित्तद दीपा	एल आर डी ई, बेंगलूर	15.12.2015
2015 AB1084	श्री देवव्रत नासकर	एस ए एस ई, चण्डीगढ़	07.12.2015
2016 AB1003	सुश्री वर्तिका बाजपेई	मुख्यालय—एस पी आई सी, दिल्ली	21.04.2016
2014AB1026	श्री दौलत सिंह	वी आर डी ई, अहमदनगर	01.08.2014

राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹ 15600—39100/— (पे बैंड—3) + ₹ 6600/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2016AC1003	श्री एस रविन्द्रन	मुख्यालय— एस पी आई सी, दिल्ली	09.05.2016

राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹ 15600—39100/— (पे बैंड—3) + ₹ 6600/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2014AC1002	श्री मनोज कुमार रेड्डी	सी एफ ई ई एस, दिल्ली	07.07.2014

अंजुम सिद्दीकी
उप-निदेशक/कार्मिक (डी आर डी एस-II)

(सेना शाखा)

सं. 190, दिनांक 24 जुलाई 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना
स्थाई आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से)

निम्नलिखित 315 कैडिटों को जो की 139 नियमित पाठ्यक्रम (68 डाईरेक्ट एन्ट्री, 200 एक्स एन डी ए तथा 47 एक्स ए सी सी) के सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से तथा इनमें से एक जीसी डी/46515 (आई सी 82396वाई) रोहित सिंह, है जो आयोग के समय एल एम सी थे। शेष-1 होने के बाद जीसी डी/46515 (आई सी 82396वाई) रोहित सिंह, दिनांक 23 मार्च 2017 पूर्वाहन से, सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी) यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या		नाम	आर्म/सर्विस
82153	एन	मल्ला रामा गोपाल नायडु	इन्फैन्ट्री
82154	डब्ल्यू	सुयश गुप्ता	इन्फैन्ट्री
82155	वाई	प्रत्यूष कुमार मोहन्ति	इन्फैन्ट्री
82156	एफ	अभिषेक कुण्डलिया	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्म / सर्विस
82157	के सुनील राणा	एसी
82158	एम लोपिन्ती प्रीतम कुमार रेडडी	आर्टी
82159	पी अनुप भट्ट	सिग्नल्स
82160	के राकेश यादव	आर्टी
82161	एम शरद शर्मा	इंजीनियर्स
82162	पी पवन कुमार राव	आर्टी
82163	एक्स पुष्पेन्द्र कुमार यादव	ईएमई
82165	एच अजय प्रकाश	इन्फैन्ट्री
82166	एल अभिषेक जैन	आर्टी
82167	एन विवेक पहल	एएससी
82168	डब्ल्यू नितीश शर्मा	आर्टी
82169	वाई युवराज सिंह	आर्टी
82170	एन जे रन्जित कुमार	आर्टी
82171	डब्ल्यू सुधोशु शर्मा	इन्फैन्ट्री
82172	वाई विशाल डबास	इन्फैन्ट्री
82173	एफ शुभम गौतम	एएससी
82174	के आर्यन गौतम	एएडी
82175	एम नरेंद्र सिंह	एओसी
82176	पी मोनू	मैक
82177	एक्स राहुल सिंह राणा	इंजीनियर्स
82178	ए पियूष अभिषेक	इन्फैन्ट्री
82180	एक्स अविनाश	आर्टी
82182	एच अभिजित एम एस	इन्फैन्ट्री
82183	एल रोहित राठौड़	एसी
82184	एन अनुराग खासा	मैक
82185	डब्ल्यू वैशाख गोपन	इन्फैन्ट्री
82186	वाई अश्वनी काण्डपाल	इन्फैन्ट्री
82187	एफ अमित जोशी	मैक
82188	के रवि कुमार	इन्फैन्ट्री
82189	एम शान्तनु मोहन	एसी
82190	एफ अमित कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
82191	के अभिषेक भारद्वाज	आर्टी
82192	एम कुन्दन कुमार	ईएमई
82193	पी मुनेश कौशिक	सिग्नल्स
82194	एक्स मोहित सैनी	एएडी
82195	ए प्रशान्त	एएससी
82196	एच कपिल कुन्दु	एएससी
82197	एल उज्ज्वल कौशिक	आर्टी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
82198	एन	शोभित बिष्ट	इन्फैन्ट्री
82199	डब्ल्यू	धनंजय सिद्धप्पा माली	आर्टी
82200	ए	अभीराज सिंह संधु	आर्टी
82201	एच	ललित उपमन्यु	आर्टी
82202	एल	समर्थ एम गंगापुरे	आर्टी
82203	एन	अंकुश सिंह	इंजीनियर्स
82204	डब्ल्यू	अभिषेक शुक्ला	इन्फैन्ट्री
82205	वाई	निशांत रवि	आर्टी
82206	एफ	मनोज एम	एओसी
82208	एम	गुरसिमरनजीत सिंह	इन्ट
82209	पी	अनिल गंगोला	एसी
82210	के	योगेन्द्र रूहिल	एएडी
82211	एम	धनंजय जम्वाल	इन्फैन्ट्री
82212	पी	नवनीत बाजपेयी	मैक
82213	एक्स	अजय प्रताप सिंह तोमर	इन्फैन्ट्री
82214	ए	सुब्रत कुमार देव	एओसी
82215	एच	राहुल बाबर	इन्फैन्ट्री
82216	एल	सतपाल सिंह	इन्फैन्ट्री
82217	एन	रोहित सांगवान	एसी
82218	डब्ल्यू	आशीष चौधरी	मैक
82219	वाई	सत्येन्द्र शर्मा	एसी
82220	एन	तुषार गुप्ता	आर्टी
82221	डब्ल्यू	शुभम चौहान	आर्टी
82222	वाई	जसकरण सिंह	आर्टी
82223	एफ	मनमीत सिंह	इन्फैन्ट्री
82224	के	शुभम त्रिपाठी	सिग्नल्स
82225	एम	पंकज कुमार	आर्टी
82226	पी	मोइरांअरगथम जोनसन सिंह	इन्फैन्ट्री
82227	एक्स	विकास	इन्फैन्ट्री
82228	ए	सौरव भारती	इन्फैन्ट्री
82229	एच	पंकज शर्मा	इन्फैन्ट्री
82230	एक्स	समीर राजेन्द्र केलहे	इन्फैन्ट्री
82231	ए	अक्षय कुमार	एएससी
82232	एच	जितेन्द्र कुमार	इन्ट
82233	एल	जगराज सिंह	एओसी
82234	एन	पिनाक पाणि	इंजीनियर्स
82235	डब्ल्यू	अर्जुन नायर	एविएशन
82236	वाई	धीरज शर्मा	ईएमई

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
82237	एफ	सेवक राई	एएससी
82239	एम	गौतम देव सिंह	इंजीनियर्स
82240	एफ	विपुल चौहान	आर्टी
82241	के	कारज सिंह	इन्फैन्ट्री
82242	एम	अंकित कुमार गुप्ता	इन्फैन्ट्री
82243	पी	अनमोलदीप भुल्लर	एएडी
82244	एक्स	कार्तिक जसवाल	इन्फैन्ट्री
82245	ए	दीपक दहिया	एएडी
82246	एच	जीराम आलम	आर्टी
82247	एल	सौरभ सिंह	इन्फैन्ट्री
82248	एन	विजय कुमार	एएडी
82249	डब्ल्यू	गौरव गुडवानी	आर्टी
82250	एल	जैरी एम जे	आर्टी
82252	डब्ल्यू	अभिषेक सिंह ठाकुर	मैक
82253	वाई	बुद्धि मान लिम्बु	एओसी
82254	एफ	शुभेंदु शर्मा	आर्टी
82255	के	दीपेन्द्र सिंह शेखावत	एएडी
82256	एम	विनोद कुमार	आर्टी
82257	पी	शशांक त्यागी	मैक
82258	एक्स	बिक्रम सिंह	एओसी
82259	ए	कमल शर्मा	ईएमई
82261	एक्स	दीपक गोदारा	इन्फैन्ट्री
82262	ए	अम्युदय प्रकाश	एएडी
82263	एच	सत्यम सिंह	आर्टी
82264	एल	रामेश्वर दयाल मीणा	सिग्नल्स
82265	एन	गुरप्रीत सिंह	ईएमई
82266	डब्ल्यू	दीपेन्द्र सिंह	आर्टी
82267	वाई	राहुल राणा	आर्टी
82268	एफ	रौशन कुमार	आर्टी
82269	के	दिग्विजय सिंह भण्डारी	इंजीनियर्स
82270	वाई	अमित रैना	इन्फैन्ट्री
82271	एफ	सलिल शर्मा	एसी
82272	के	कंचन थापा	एएससी
82273	एम	अर्पित शर्मा	इन्फैन्ट्री
82274	पी	राकेश चौधरी	इन्फैन्ट्री
82275	एक्स	आकाश पाण्डेय	एसी
82276	ए	शशांक शेखर शर्मा	एएससी
82277	एच	जितेन्द्र यादव	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
82279	एन	रवि वेदवान	इन्फैन्ट्री
82280	एच	अंकित ठाकुर	आर्टी
82281	एल	आदित्या ठाकुर	इन्फैन्ट्री
82282	एन	शुभम ठाकुर	इन्फैन्ट्री
82283	डब्ल्यू	करनवीर सिंह राणा	आर्टी
82284	वाई	विवेक आर एस	इन्फैन्ट्री
82285	एफ	अमितेश मिश्र	आर्टी
82286	के	विश्वनाथ केशव भोई	एविएशन
82287	एम	रवि साहु	इन्फैन्ट्री
82288	पी	अबनम कुमार	आर्टी
82289	एक्स	अंकित छीपा	इन्फैन्ट्री
82290	एम	हिमांशु पाण्डे	इन्फैन्ट्री
82291	पी	अरुण कुमार	एएडी
82292	एक्स	हरमनदीप सिंह बराड़	एएडी
82293	ए	अभिनव आनंद	आर्टी
82294	एच	रजत सिंह	एसी
82295	एल	दीपांकुल आनंद	एओसी
82296	एन	अमनदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
82299	एफ	अतिश कुमार सिंह	ईएमई
82300	एल	गौरव सिंह	इन्फैन्ट्री
82301	एन	अनिल कुमार खत्री	एसी
82302	डब्ल्यू	उमेश प्रसाद	इन्फैन्ट्री
82303	वाई	सचिन नौडियाल	इंजीनियर्स
82304	एफ	साहिल कुमार	आर्टी
82305	के	क्षितिज प्रांजल स्वर्णकार	मैक
82306	एम	मयंक कुमार	इन्ट
82307	पी	सुयश बाल्यान	एएससी
82308	एक्स	गौरव सिंह चन्द	इंजीनियर्स
82309	ए	धीरज सिंह	आर्टी
82310	पी	राघवेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
82311	एक्स	पाण्डेय प्रवीण सुधीर	आर्टी
82312	ए	हितेश यादव	आर्टी
82313	एच	शर्मा रौमिक कुमार	एएससी
82314	एल	अंकित यादव	आर्टी
82315	एन	नयन राभा	एएडी
82316	डब्ल्यू	आदित्य शर्मा	इन्फैन्ट्री
82318	एफ	इन्द्रजीत सिंह	एओसी
82319	के	अंकित द्विवेदी	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्म / सर्विस
82320	वाई	अभय चंकरोला
82321	एफ	विवेक जोशी
82322	के	सौरव सिंह
82323	एम	शुभांकर दास शर्मा
82324	पी	अनन्दू जी एस
82325	एक्स	संतोष कुमार साहु
82326	ए	फैसल खान
82327	एच	अरनव कोहली
82328	एल	अंशुल डागर
82329	एन	आयुश जोशी
82331	एल	उमर फयाज
82332	एन	कार्तिक धगट
82334	वाई	पर्व मलिक
82335	एफ	मनजीत मुदगल
82336	के	संतोष सिंह
82337	एम	रजत चौहान
82338	पी	अनंथ बिजु
82339	एक्स	राकेश
82340	एम	अजीत कुमार राय
82341	पी	सन्नी चाहर
82342	एक्स	एकांत
82343	ए	आकाश मिश्रा
82344	एच	सिद्धार्थ लाड़
82345	एल	वैभव पाण्डेय
82346	एन	किरण पि जोश
82347	डब्ल्यू	अयनराज एम
82348	वाई	पंकज कुमार
82349	एफ	बसवप्रभु जै. संकनगौडर
82350	डब्ल्यू	सुधीर सिंह
82351	वाई	अक्षय कुमार
82352	एफ	अंकुश पाण्डेय
82353	के	भवनीत सिंह
82354	एम	राणा
82355	पी	कन्हैया लाल मीणा
82356	एक्स	निरज कुमार दुबे
82357	ए	मनोज सिंह चौहान
82358	एच	निखिल सजवाण
82359	एल	पुनीत कुमार

आई सी संख्या	नाम	आर्म / सर्विस
82360	ए	अजय सिंह
82361	एच	अनुज वर्मा
82363	एन	राहुल कुमार सिंह कुशवाह
82364	डब्ल्यू	विशाल यादव
82365	वाई	सुधांशु शेखर मिश्रा
82366	एफ	मोहम्मद अहमद खान
82367	के	अजय शर्मा
82368	एम	अभिषेक बिष्ट
82369	पी	दीपक फौगाट
82370	के	हरदीप सिंह
82371	एम	अंतरिक्ष महोत्रा
82372	पी	हिंदुराव भोसले
82373	एक्स	विशाल गुज्जर
82374	ए	प्रणौय मैंगी
82376	एल	आयुष कविटयाल
82377	एन	अक्षयदीप सिंह गिल
82378	डब्ल्यू	पंकज त्रिपाठी
82379	वाई	उमेश शंकर सिंह तोमर
82381	डब्ल्यू	मनीष पाल
82382	वाई	शुभम
82384	के	आर्य पांडे
82385	एम	मनजीत
82386	पी	अविनाश मिश्रा
82387	एक्स	शुभम थापा
82388	ए	मधुर्या मलिक
82389	एच	मृणाल शर्मा
82390	एक्स	सनल एस नायर
82391	ए	चंदन कुमार
82392	एच	आदीश सिहोल
82393	एल	पुनीत यादव
82395	डब्ल्यू	अंकित यादव
82396	वाई	रोहित सिंह
82397	एफ	प्रेम शुक्ला
82398	के	वैभव
82399	एम	बिसन विनय चरन
82401	वाई	भानु प्रताप
82402	एफ	शुभम खेर
82403	के	अनुराग सावर्णि

आई सी संख्या	नाम	आर्म / सर्विस
82404	एम	अंकित कुमार
82405	पी	शिवम गर्ग
82408	एच	अजय दीक्षित
82409	एल	गौरव
82411	एच	आदित्य कुमार
82412	एल	आकाश माहेश्वरी
82413	एन	शैलेश कुमार पाण्डेय
82414	डब्ल्यू	आशीष गोस्वामी
82417	के	सहज वाधावान
82418	एम	दिव्य शक्ति सिंह बिष्ट
82419	पी	हरिप्रसाद
82420	के	मनोहर सिंह
82421	एम	अरविन्द कुमार गुप्ता
82422	पी	मयंक विरमानी
82423	एक्स	उमेश यादव
82424	ए	मोहनीश कुमार
82425	एच	पाटील श्रेयक अतुल
82426	एल	अक्षय पराशर
82427	एन	विक्रमादित्य सिंह राठौर
82429	वाई	रिकू हलाम
82430	एन	प्रलय कुमार त्रिवेदी
82431	डब्ल्यू	गिडआन टुगंडिम जो
82432	वाई	मन्ने निखिल
82433	एफ	एन अनिल कुमार
82434	के	मनाल चौहान
82435	एम	तरुण कुमार मुन्ना
82436	पी	अंकज कुमार
82437	एक्स	कार्तिक यु
82438	ए	अरुण कुमार
82439	एच	विश्वाजित नागर
82440	एक्स	अजित प्रताप सिंह यादव
82441	ए	रोहित कुमार
82442	एच	रजत राजेन
82444	एन	आकाश मलिक
82445	डब्ल्यू	प्रवीन कुमार
82447	एफ	गोविन्द सिंह
82449	एम	बलवीर सिंह
82450	एफ	आकाश बंसल

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
82451	के	अभिषेक चौहान	एसी
82452	एम	ए उदय कुमार	इन्फैन्ट्री
82453	पी	चिराग वशिष्ठ	आर्टी
82454	एक्स	यशवीर सिंह	आर्टी
82455	ए	नौगमाथेम राकेशकुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
82456	एच	नीरज सिंह नेगी	इन्फैन्ट्री
82457	एल	आशुतोष यादव	आर्टी
82458	एन	निखिल नागर	एएडी
82460	एल	रोमाला आशेश यादव	इन्फैन्ट्री
82461	एन	अजय पाल सिंह	एएडी
82462	डब्ल्यू	कमलेश बुरानिया	इन्फैन्ट्री
82463	वाई	हर्षवर्धन सिंह राठौड़	मैक
82464	एफ	योगेश कुमार हरमुख	इंजीनियर्स
82465	के	आशीष कुमार	मैक
82468	एक्स	आभास ठाकर	ईएमई
82469	ए	आदित्य मिश्रा	इन्ट
82470	पी	संदीप मणिधर	एएससी
82471	एक्स	सचिन वर्मा	आर्टी
82473	एच	गुंजर ठाकुर	एओसी
82475	एन	प्रियांक सिंह	एसी
82476	डब्ल्यू	अनुराग झोंकड़ा	आर्टी
82477	वाई	रजत राणा	आर्टी
82478	एफ	हरदीप सिंह	एएडी
82479	के	कपिल शर्मा	सिग्नल्स
82480	वाई	जितिन कुमार जी	इन्फैन्ट्री
82481	एफ	अनीश दहिया	इंजीनियर्स
82482	के	शुचि प्रकाश राय	इंजीनियर्स
82483	एम	विजय कुमार	आर्टी
82485	एक्स	रितेश पुन	इन्फैन्ट्री
82487	एच	आकाश बाल्याण	आर्टी
82489	एन	प्रतीक कुमार मिश्रा	आर्टी
82490	एच	शिवम्	आर्टी
82491	एल	निखिल तिवारी	एएससी

आई सी संख्या		नाम	आर्म/सर्विस
82493	डब्ल्यू	सोम कार्तिकेय पंत	इन्फैन्ट्री
82494	वाई	रमनीक सिंह भाटिया	इन्फैन्ट्री
82495	एफ	मोहन सिंह	इन्फैन्ट्री
82496	के	हर्षित जानू	एसी
82497	एम	देबु कृष्ण सिन्हा	इन्फैन्ट्री
82498	पी	दीपक दीक्षित	मैक
82499	एक्स	पल्लव यादव	इन्फैन्ट्री
82500	एफ	निष्कर्ष त्रिपाठी	एएडी
82501	के	राहुल कुमार	ईएमई
82502	एम	विजय सिंह गुर्जर	इन्फैन्ट्री
82503	पी	विनायक राजपुत	मैक
82504	एक्स	चावडा ऋतुराज सिंह	इन्फैन्ट्री

ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से

निम्नलिखित आठ कैडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81503एच अभीत राय (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81502ए मृणाल कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81533ए हरजस सिंह गिल (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81532एक्स जसविन्द्र सिंह (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81542एफ अजान मिराज (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81541वाई सुमित कुमार यादव (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 81593पी उत्कर्ष मिश्र (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81592एम सौरभ कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81752एफ आशीष सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81751वाई मनमहक सिंह खैरा (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81863वाई एन एस प्रसून (ईएमई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81862डब्ल्यू साहिल कश्यप (एएडी) के नीचे, आई सी संख्या 81905ए रोहित कुमार ओझा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81904एक्स इन्द्रजीत भट्टाचारजी (एएडी) के नीचे, आई सी संख्या 81912डब्ल्यू तुषार बाजपेई (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81911एन कुलकर्णी जतिन जगदिशराव (इन्ट) के नीचे,

ले. के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से

निम्नलिखित आठ कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80902ए अभिषेक कुमार सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80903एच रवि मूलिमनी (इन्फैन्ट्री) के ऊपर, आई सी संख्या 80910वाई हरतेज सिंह रंधावा (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80909के जग प्रवेश (ईएमई) के नीचे, आई सी संख्या 80979एच जय जोशी (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80978ए दीपक राठी (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80997एल अभिषेक धवन (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80996एच परमिंदर यादव (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 81099वाई श्रीनिवास तिमन्ना लेंडी (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81098डब्ल्यू अरिजीत बोस (सिग्नल्स) आई सी संख्या 81145एच अंगद चहल (सिग्नल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81144ए कुलदीप सिंह राठौर (आर्टी) आई सी संख्या 81156पी सम्पूर्णानन्द (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81155एम सुधीर यादव (एएडी) तथा आई सी संख्या 81247वाई कुलजीत सिंह (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81246डब्ल्यू कुशान दिक्षित (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले. के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से

निम्नलिखित आठ कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना मे लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80221एक्स रोहित गौतम (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80220पी सुनंदित महाजन (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 80325वाई तुषार शर्मा (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80324डब्ल्यू पुष्पेश चन्द महोविया (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80355डब्ल्यू नरेन्द्र कुमार (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80354एन भुवन उपाध्याय (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 80487के के अशोक कुमार (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80486एफ करन सिंह (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 80521वाई करनजीत सिंह जसपाल (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80520डब्ल्यू विष्णु सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80524एम सुखपाल सिंह (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80523के अमन दूबे (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80540के नायर मोहित मोहनदास (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80539पी रजनीश कुमार (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 80571के राहुल सिंह गुर्जर (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80570एफ नीलाभ खाती (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले. के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना मे लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80257डब्ल्यू टी एच सुराजीत सिंह (एससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80256एन सुशांत गर्ग (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80303ए रोहिन जूड रॉक (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80302एक्स रवि किरण जायसवाल (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80615डब्ल्यू सौम्य साकेत (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80614एन ऋतुराज सिंह रावत (सिग्नल्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से

निम्नलिखित दस कैडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना मे लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81499एल एन दिनेश कुमार (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81498एच अमन ढाका (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 81620एन संदीप कुमार औली (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81619वाई राहुल गोयत (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81649डब्ल्यू भार्गव कलिता (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81648एन सुदर्शन कुमार (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81671एफ सौरभ महालावत (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81670वाई प्रतीक सिंह बिष्ट (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81679एन आयुष चौहान (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81678एल पंकज कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81721एफ आशीष आनन्द (ईएमई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81720वाई कृष्ण (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81767के दिग्विजय सिंह जोधा (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81766एफ निर्वेद मिश्रा (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81815वाई आदित्य कुमार शर्मा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81814डब्ल्यू संजय बिश्नोई (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 81821एम अमन (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81820के संतोष कुमार (इंजीनियर्स) के नीचे, तथा आई सी संख्या 81898पी संदीप सिंह खटना (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81897एम अविनाश उपाध्याय (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले. के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना मे लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79770एल आशीष देशमुख (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79769डब्ल्यू प्रतीक बीडकर (सिग्नल्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

अभिषेक तिवारी
ले. कर्नल
एएमएस 8बी

(सेना शाखा)

सं. 191, दिनांक 25 जुलाई 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना
स्थाई आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 133 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78462वाई अक्षय दोरा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78461डब्ल्यू अविनाश कुमार (मैक) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले. के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80583वाई कुणाल कुमार (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80582डब्ल्यू नमितेष दीक्षित (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80621के शंतनु घाटपाण्डे (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80620एफ आनन्द विक्रम सिंह (एएडी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले. के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से

निम्नलिखित बारह कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80924वाई कार्तिकेय (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80923डब्ल्यू तुषार शर्मा (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 80954डब्ल्यू गौतम गोयल (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80953एन विक्रम सिंह खर्बे (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 81034एल जितेन्द्र शर्मा (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81033एच प्रणब एम (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 81038एफ अनुजपाल डेका (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81037वाई सौरभ कुमार दुबे (सिग्नल्स) के नीचे, आई सी संख्या 81068वाई कुमार शिवम (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81067डब्ल्यू शांतनु निरंजन जोशी (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81073के मिलिन्द (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81072एफ निखिल विश्णोई (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81117डब्ल्यू साहिल कादयान (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81116एन वरुण ओक (एविएशन) के नीचे, आई सी संख्या 81149वाई रोशन कुमार झाँ (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81148डब्ल्यू चेतन माथुर (आई) के नीचे, आई सी संख्या 81174एक्स अरसलान खैरुल बशर (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81173पी आकाश गिलांवत (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81184एफ देवेश चिलवाल (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81183वाई कार्तिक यादव (एएडी) के नीचे, आई सी संख्या 81253एम गणेश राधाकृष्णन (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81252के दक्ष धन्खड़ (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 81264वाई सौम्यदयुनि बोस (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81263डब्ल्यू अभिषेक शर्मा (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से)

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81562पी अमित एस पाटील (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81561एम शिवांशू (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81595ए सुनील कुमार यादव (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81594एक्स सुशील कुमार यादव (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81608एम सौरभ कुमार प्रजापति (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81607के सुल्फिक्कर ए (एओसी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

प्रकाश कुमार सिंह
मेजर
एएमएस 8बी

सेना शाखा

सं. 192, दिनांक 26 जुलाई 2017—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

3 गोरखा राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार खेम बहादुर केसी	जेसी-607564एच	01 सितम्बर 2014
सूबेदार दिल बहादुर थापा	जेसी-607632एल	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार राम बहादुर गुरुंग	जेसी-607685के	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार अमर बहादुर थापा	जेसी-607690पी	01 नवम्बर 2014
सूबेदार राम बहादुर थापा	जेसी-607631एच	01 दिसम्बर 2014

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मिन बहादुर थापा	जेसी-607907एन	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार पदम बहादुर रोका	जेसी-607910एन	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार गणेश बहादुर गुरुंग	जेसी-607940एल	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार गन बहादुर पुन	जेसी-607941एन	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार तेज बहादुर	जेसी-607942डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार लिपिक रबी भुषण	जेसी-607798एम	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार लिपिक मुरलीधर वर्मा	जेसी-607816के	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार केशन प्रसाद गुरुंग	जेसी-607812एन	13 अगस्त 2014*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014)

नायब सूबेदार जय बहादुर थापा	जेसी-607911डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार मिन बहादुर थापा	जेसी-607832एफ	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार ज्योती बहादुर थापा	जेसी-607841एच	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार पूर्णा बहादुर गुरुंग	जेसी-607824एच	01 अक्टूबर 2014

नायब सूबेदार बिरेन्द्र थापा	जेसी—607856एल	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार लिपिक मुन्सी राम शर्मा	जेसी—607881के	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार दिल बहादुर चिठी	जेसी—607912वाई	09 अक्टूबर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014)		
नायब सूबेदार तर्क बहादुर थापा	जेसी—607913एफ	07 अक्टूबर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014)		
नायब सूबेदार अमर बहादुर मगर, एसएम	जेसी—607839एल	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार बालाजी थापा	जेसी—607943वाई	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रधान	जेसी—607947पी	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार टिका बहादुर पुन	जेसी—607949ए	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार सरन बहादुर थापा	जेसी—607950पी	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार घन बहादुर थापा	जेसी—607952ए	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार मित्रा बहादुर गुरुंग	जेसी—607835पी	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार पदम बहादुर पुन	जेसी—607857एन	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार राम चन्द्र गुरुंग	जेसी—607858डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार होम बहादुर राना मगर	जेसी—607878के	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार भक्ता बहादुर थापा	जेसी—607957वाई	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार गोपाल सिंह थापा	जेसी—607960वाई	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार ओम बहादुर थापा	जेसी—607965एक्स	29 दिसम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014)		
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार रजाई गुरुंग	(सं. 5247082एक्स अब जेसी—607979एक्स)	24 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई 2013)		
हवलदार हिम बहादुर थापा	(सं. 5246429एम अब जेसी—607980एम)	18 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013)		
हवलदार ओम बहादुर थापा, सेना मेडल	(सं. 5246951पी अब जेसी—607981पी)	01 जून 2013
हवलदार मनोज थापा	(सं. 5246943डब्ल्यू अब जेसी—607982एक्स)	01 जून 2013
हवलदार टक बहादुर राणा	(सं. 5246048एल अब जेसी—607983ए)	13 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013)		
हवलदार अना बहादुर थापा	(सं. 5247104एल अब जेसी—608014एम)	01 अगस्त 2014
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2014)		
हवलदार देव कुमार गुरुंग	(सं. 5247142एफ अब जेसी—608015पी)	01 अगस्त 2014

हवलदार सोम बहादुर थापा	(सं. 5246655के अब जेसी—608016एक्स)	01 अगस्त 2014
हवलदार रिक्की राम थापा	(सं. 5247183एल अब जेसी—608017ए)	01 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014)		
हवलदार बिषणु बहादुर थापा	(सं. 5246677एच अब जेसी—608018एच)	29 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2014)		
हवलदार लिपिक अनिल कुमार	(सं. 4072391एल अब जेसी—608019एल)	01 सितम्बर 2014
हवलदार लिपिक रघु राइ	(सं. 4072616एच अब जेसी—608020ए)	01 सितम्बर 2014
हवलदार लिपिक प्रमोद कुमार	(सं. 4072683एन अब जेसी—608021एच)	01 सितम्बर 2014
हवलदार केहर सिंह घर्ती	(सं. 5247221डब्ल्यू अब जेसी—608022एल)	22 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014)		
हवलदार लिपिक सईद मुकिद अहमद	(सं. 5246513एम अब जेसी—608023एन)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार देव कुमार गुरुंग	(सं. 5247152एल अब जेसी—608024डब्ल्यू)	14 अक्टूबर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014)		
हवलदार दुर्गा बहादुर थापा	(सं. 5246698वाई अब जेसी—608025 वाई)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार प्रेम कुमार थापा	(सं. 5246720वाई अब जेसी—608026एफ)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार बिषणु बहादुर थापा	(सं. 5247230एक्स अब जेसी—608027के)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक प्रदीप कुमार डिन्दा	(सं. 5246512के अब जेसी—608028एम)	01 नवम्बर 2014
हवलदार गंगा बहादुर गालामी	(सं. 5246708एक्स अब जेसी—608029पी)	01 नवम्बर 2014
हवलदार प्रकाश गुरुंग	(सं. 5246722के अब जेसी—608030के)	01 नवम्बर 2014
हवलदार थम बहादुर गुरुंग	(सं. 5246723एम अब जेसी—608031एम)	01 नवम्बर 2014
हवलदार दुर्गा बहादुर आले	(सं. 5247743एम अब जेसी—608032पी)	01 नवम्बर 2014
हवलदार रेस बहादुर राना	(सं. 5246753के अब जेसी—608033एक्स)	01 नवम्बर 2014
हवलदार मन बहादुर कमछा	(सं. 5246869ए अब जेसी—608034ए)	01 नवम्बर 2014
हवलदार टेक बहादुर पुन	(सं. 5247159पी अब जेसी—608035एच)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार कुलदीप थापा	(सं. 5247415वाई अब जेसी—608036एल)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार रमेश थापा	(सं. 5247416एफ अब जेसी—608037एन)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार हम बहादुर गुरुंग	(सं. 5247253वाई अब जेसी—608038डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार अमर बहादुर आले	(सं. 5246676ए अब जेसी—608039वाई)	25 दिसम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2014)		
हवलदार संता बहादुर गुरुंग	(सं. 5246719के अब जेसी—608040एन)	25 दिसम्बर 2014*
*(नायब सूबेदारके रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2014)		
हवलदार बुद्धा बहादुर श्रीस	(सं. 5246763एन अब जेसी—608041डब्ल्यू)	25 दिसम्बर 2014

	सूबेदार मेजर के रैंक में	
सूबेदार बिर बहादुर राणा	जेसी—607743एच	01 अगस्त 2015
	सूबेदार के रैंक में	
नायब सूबेदार सूशील कुमार	जेसी—607843एन	01 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015)		
नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर थापा	जेसी— 607905एच	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार बिष्णु प्रसाद कर्माचार्य	जेसी—607916पी	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार लक्ष्मी बुढाढोकी	जेसी—607920एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार बुद्धी प्रसाद	जेसी—607923एल	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार दल बहादुर थापा	जेसी—607924एन	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर हमाल	जेसी—607972एन	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार लिपिक शोभा राम	जेसी—607946एम	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार लिपिक वीरे सिंह	जेसी—607956डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार प्रकाश पुन	जेसी—607840ए	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार राम कुमार श्रेष्ठा	जेसी—607844डब्ल्यू	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार टिका राम राना	जेसी—607928के	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार अनुप गुरुंग	जेसी—607958एफ	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार बासू देव पुन	जेसी—607973डब्ल्यू	02 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015)		
नायब सूबेदार लिपिक मुकुट लाल	जेसी—607959के	02 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015)		
नायब सूबेदार सूरेंद्र बहादुर गुरुंग	जेसी—607850के	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार धनराज गुरुंग	जेसी—607917एक्स	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार लक्ष्मन प्रधान	जेसी—607851एम	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
नायब सूबेदार देयु प्रसाद गुरुंग	जेसी—607845वाई	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
नायब सूबेदार टिका प्रसाद छन्थेल	जेसी—607963एम	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
नायब सूबेदार मिन बहादुर थापा	जेसी—607974वाई	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
नायब सूबेदार चूर बहादुर राणा	जेसी—607975ए	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
नायब सूबेदार बिष्णु बहादुर सारु	जेसी—607991वाई	02 मार्च 2015*
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
नायब सूबेदार नबीन कुमार पुन	जेसी—607992एफ	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		

नायब सूबेदार लिपिक बनवारी लाल	जेसी-607971एल	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार लिपिक मिल्लो राम यादव	जेसी-607985एल	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार लिपिक मृण्मय रय	जेसी-608002एक्स	01 जून 2015
नायब सूबेदार भक्ता बहादुर थापा	जेसी-607921ए	06 जुलाई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015)		
नायब सूबेदार कर्णा बहादुर थापा	जेसी-607930एफ	15 अप्रैल 2015
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015)		
नायब सूबेदार दम बहादुर गुरुंग	जेसी-608001पी	01 जून 2015
नायब सूबेदार रुर्दा बहादुर गुरुंग	जेसी-607922एच	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार सील बहादुर थापा	जेसी-607854ए	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार नारायण थापा	जेसी-607865एम	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार देवी राम मगर	जेसी-607866पी	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार रण बहादुर गुरुंग	जेसी-607867एक्स	02 नवम्बर 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015)		
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार लिपिक मानवेन्द्र सिंह नेगी	(सं. 5246529एक्स अब जेसी-608042वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार लिपिक इस्लामुद्दीन	(सं. 5246536एन अब जेसी-608043एफ)	01 जनवरी 2015
हवलदार देमन सिंह थापा	(सं. 5247165एच अब जेसी-608044के)	01 जनवरी 2015
हवलदार खुम बहादुर थापा	(सं. 5246729एन अब जेसी-608045एम)	07 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015)		
हवलदार रेशम सेरचन	(सं. 5246861एन अब जेसी-608046पी)	01 जनवरी 2015
हवलदार कुम बहादुर गुरुंग	(सं. 5247298वाई अब जेसी-608047एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार सूर्या बहादुर थापा	(सं. 5247316डब्ल्यू अब जेसी-608048ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार जय बहादुर पुन मगर	(सं. 5247337एम अब जेसी-608049एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार लिपिक प्रेम बहादुर थापा	(सं. 5246613एक्स अब जेसी-608050एक्स)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक रवीन्द्र प्रसाद नाथ ठाकुर	(सं. 5247210एच अब जेसी-608051ए)	01 फरवरी 2015
हवलदार हरका बहादुर थापा	(सं. 5247171डब्ल्यू अब जेसी-608052एच)	02 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015)		
हवलदार बिरता तामांग	(सं. 5247889ए अब जेसी-608053एल)	01 फरवरी 2015
हवलदार मन बहादुर आले	(सं. 5246863वाई अब जेसी-608054एन)	01 फरवरी 2015
हवलदार ज्ञान बहादुर थापा	(सं. 5247375एच अब जेसी-608055डब्ल्यू)	01 फरवरी 2015
हवलदार सहदेव थापा	(सं. 5247403के अब जेसी-608056वाई)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक अनिल एम एम	(सं. 5247717एल अब जेसी-608057एफ)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
हवलदार दिल बहादुर पुन	(सं. 5247178ए अब जेसी-608058के)	01 मार्च 2015
हवलदार अर्मित गुरुंग	(सं. 5247883वाई अब जेसी-608059एम)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		

हवलदार कुशल चन्द्र थापा	(सं. 5246766एफ अब जेसी—608060एफ)	05 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
हवलदार केसर बहादुर थापा मगर	(सं. 5247623एन अब जेसी—608061के)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
हवलदार पूर्णा बहादुर	(सं. 5246876डब्ल्यू अब जेसी—608062एम)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
हवलदार होम बहादुर श्रेष्ठा	(सं. 5246911एन अब जेसी—608063पी)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
हवलदार दुर्गा दोज गुरुंग	(सं. 5246916एम अब जेसी—608064एक्स)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
हवलदार पूर्णा बहादुर थापा	(सं. 5247029एम अब जेसी—608065ए)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015)		
हवलदार पदम बहादुर थापा	(सं. 5247435एम अब जेसी—608066एच)	01 मार्च 2015
हवलदार लिपिक गजपाल सिंह बिस्ट	(सं. 5247947वाई अब जेसी—608067एल)	01 अप्रैल 2015
हवलदार अनिल थापा	(सं. 5247050पी अब जेसी—608068एन)	15 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015)		
हवलदार रोबिन थापा	(सं. 5247084एच अब जेसी—608069डब्ल्यू)	01 जून 2015
हवलदार दन बहादुर थापा	(सं. 5246827एन अब जेसी—608070एल)	01 जुलाई 2015
हवलदार लिपिक टपेश्वर कुमार	(सं. 5247747एच अब जेसी—608071एन)	12 जुलाई 2015
हवलदार देबिन्द्र राणा	(सं. 5246880वाई अब जेसी—608072डब्ल्यू)	01 अगस्त 2015
हवलदार रोशन गुरुंग	(सं. 5247192एम अब जेसी—608073वाई)	01 नवम्बर 2015
हवलदार टिका राम सिंजली थापा	(सं. 5247235डब्ल्यू अब जेसी—608074एफ)	27 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015)		
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार ज्ञान बहादुर थापा	जेसी—607723पी	05 जनवरी 2016*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016)		
सूबेदार धन बहादुर थापा	जेसी—607769एक्स	01 फरवरी 2016
सूबेदार रटना बहादुर पून	जेसी—607786एक्स	01 फरवरी 2016
सूबेदार मोहन बहादुर गुरुंग	जेसी—607782एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार धन बहादुर श्रेष्ठा	जेसी—607838एच	01 अप्रैल 2016
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार गोविंदा बहादुर थापा	जेसी—607877एफ	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार भीमा लाल भुशाल	जेसी—607889डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार यम बहादुर आले	जेसी—607896एम	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार राम बहादुर थापा	जेसी—607868ए	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार यम बहादुर थापा	जेसी—607966ए	06 जनवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016)		

नायब सुबेदार लिपिक सन्तोष कुमार	जेसी-608003ए	04 फरवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2015)		
नायब सुबेदार लिपिक पि मरुथप्पण	जेसी-608007डब्ल्यू	01 फरवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2015)		
नायब सुबेदार नव राज श्रेष्ठा	जेसी-607860एम	01 फरवरी 2016
नायब सुबेदार केसर राणा	जेसी-607872एच	01 फरवरी 2016
नायब सुबेदार शुक बहादुर थापा	जेसी-607897पी	01 फरवरी 2016
नायब सुबेदार केशव थापा	जेसी-607915एम	01 फरवरी 2016
नायब सुबेदार लिपिक अनिल कुमार	जेसी-608019एल	02 मार्च 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2016)		
नायब सुबेदार यम बहादुर राणा	जेसी-608004एच	01 मार्च 2016
नायब सुबेदार कृष्णा बहादुर रोका	जेसी-607967एच	01 मार्च 2016
नायब सुबेदार विजेन्द्र बहादुर	जेसी-607968एल	01 मार्च 2016
नायब सुबेदार सुखदेव सुब्बा	जेसी-607969एन	01 मार्च 2016
नायब सुबेदार राम बहादुर थापा	जेसी-608005एल	01 अप्रैल 2016
नायब सुबेदार ललित बहादुर भूजेल	जेसी-607970एच	01 अप्रैल 2016
नायब सुबेदार लिल बहादुर पुन	जेसी-607880एफ	06 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016)		
नायब सुबेदार खेम बहादुर थापा	जेसी-608006एन	01 जून 2016
नायब सुबेदार ओब बहादुर थापा, एस एम	जेसी-607981पी	01 जून 2016
नायब सुबेदार लिपिक रघु राई	जेसी-608020ए	04 जुलाई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016)		
नायब सुबेदार लिपिक प्रमोद कुमार	जेसी-608021एच	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार लिपिक सईद मुकिद अहमद	जेसी-608023एन	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार लिपिक प्रदीप कुमार दिन्दां	जेसी-608028एम	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार घनश्याम थापा	जेसी-607885ए	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार भीम बहादुर गुरुंग	जेसी-607892डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार मदन मोहन	जेसी-608009एफ	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार सुनिल गुरुंग	जेसी-608010डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार लिलाम्बर थापा	जेसी-607925डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
नायब सुबेदार बिर बहादुर सारु	जेसी-607893वाई	01 अगस्त 2016
नायब सुबेदार पदम बहादुर थापा	जेसी-607898एक्स	01 अगस्त 2016
नायब सुबेदार बिष्णु बहादुर गुरुंग	जेसी-607904ए	01 अगस्त 2016
नायब सुबेदार बिर बहादुर घाले	जेसी-607931के	01 अगस्त 2016
नायब सुबेदार मनोज थापा	जेसी-607982एक्स	01 सितम्बर 2016
नायब सुबेदार मन बहादुर थापा	जेसी-607926वाई	01 सितम्बर 2016

नायब सुबेदार चूरा बहादुर गाहा	जेसी-607935ए	01 सितम्बर 2016
नायब सुबेदार हरि बहादुर थापा	जेसी-607953एच	01 सितम्बर 2016
नायब सुबेदार टेक प्रसाद गुरुंग	जेसी-607919एच	01 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार रुक बहादुर गुरुंग	जेसी-607927एफ	01 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार श्याम बहादुर गुरुंग	जेसी-607929एम	01 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार हरि बहादुर थापा	जेसी-607986एन	01 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार प्रेम बहादुर गुरुंग	जेसी-607954एल	01 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार विनेश कुमार राणा	जेसी-607936एच	01 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार भीम प्रसाद गुरुंग	जेसी-607937एल	01 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार टेक बहादुर	जेसी-607932एम	30 अक्टूबर 2016
नायब सुबेदार पहल सिंह गुरुंग	जेसी-608011वाई	01 नवम्बर 2016
नायब सुबेदार दन बहादुर कउचा	जेसी-608012एफ	01 नवम्बर 2016
नायब सुबेदार गंगा बहादुर गलामी	जेसी-608029पी	01 नवम्बर 2016
नायब सुबेदार प्रकाश गुरुंग	जेसी-608030के	01 नवम्बर 2016
नायब सुबेदार थम बहादुर गुरुंग	जेसी-608031एम	01 नवम्बर 2016
नायब सुबेदार दीर्घा बहादुर थापा	जेसी-607995पी	01 नवम्बर 2016
नायब सुबेदार लिल बहादुर पुन चोरजा	जेसी-607951एक्स	01 नवम्बर 2016
नायब सुबेदार तोपिन्द्र बहादुर रोका	जेसी-607996एक्स	01 दिसम्बर 2016
नायब सुबेदार अना बहादुर थापा	जेसी-608014एम	01 दिसम्बर 2016
नायब सुबेदार केश बहादुर गुरुंग	जेसी-607955एन	01 दिसम्बर 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016)		
नायब सुबेदार विष्णु बहादुर बुराठोकी	जेसी-607964पी	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार पेम्बा दोरजय भुटिया	(सं. 5247250एल अब जेसी-608075के)	01 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 नवम्बर 2015)		
हवलदार महादेव सिंह थापा	(सं. 5246400के अब जेसी-608076एम)	12 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016)		
हवलदार मनी बहादुर	(सं. 5247219वाई अब जेसी-608077पी)	01 जनवरी 2016
हवलदार हरी बहादुर थापा	(सं. 5247254एफ अब जेसी-608078एक्स)	01 जनवरी 2016
हवलदार नारायण थापा	(सं. 5247232एच अब जेसी-608079ए)	01 जनवरी 2016
हवलदार म्युजिशियन गंगा बहादुर	(सं. 5246667वाई अब जेसी-608080पी)	01 जनवरी 2016
हवलदार लिपिक अर्मिक सिंह	(सं. 5247325एक्स अब जेसी-608081एक्स)	01 जनवरी 2016
हवलदार लिपिक बिनोद सिंह भण्डारी	(सं. 5247968पी अब जेसी-608082ए)	01 फरवरी 2016
हवलदार लम बहादुर सारू	(सं. 5247894एल अब जेसी-608083एच)	01 फरवरी 2016
हवलदार लिपिक बिपिन बिहारी	(सं. 5247976पी अब जेसी-608084एल)	04 मार्च 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2016)		

हवलदार कमल कुमार पुन	(सं. 5246576पी अब जेसी—608085एन)	01 मार्च 2016
हवलदार भानु कुमार	(सं. 5246675एक्स अब जेसी—608086डब्ल्यू)	01 मार्च 2016
हवलदार मन बहादुर थापा	(सं. 5246823एक्स अब जेसी—608087वाई)	02 मार्च 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2016)		
हवलदार दम प्रसाद थापा	(सं. 5247091वाई अब जेसी—608088एफ)	01 मार्च 2016
हवलदार अनुज राणा	(सं. 5247274पी अब जेसी—608089के)	06 अप्रैल 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 2016)		
हवलदार मन बहादुर गुरुंग	(सं. 5247279एन अब जेसी—608090वाई)	04 अप्रैल 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 2016)		
हवलदार खडका बहादुर पुन	(सं. 5246795डब्ल्यू अब जेसी—608091एफ)	01 अप्रैल 2016
हवलदार पृथ्वी पाल पुन	(सं. 5247098एच अब जेसी—608092के)	01 अप्रैल 2016
हवलदार प्रेम बहादुर थापा	(सं. 5247913एल अब जेसी—608093एम)	14 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016)		
हवलदार भरत बहादुर गुरुंग	(सं. 5247025डब्ल्यू अब जेसी—608094पी)	01 जून 2016
हवलदार संजीत	(सं. 5247241के अब जेसी—608095एक्स)	01 जून 2016
हवलदार लिपिक अक्षेश कुमार पाथक	(सं. 5248153ए अब जेसी—608096ए)	01 जुलाई 2016
हवलदार लिपिक गंगा प्रसाद	(सं. 5248155एल अब जेसी—608097एच)	01 जुलाई 2016
हवलदार लिपिक राम नवल चौहान	(सं. 5248179पी अब जेसी—608098एच)	01 जुलाई 2016
हवलदार लिपिक बीरेन्द्र मालिक	(सं. 5248211वाई अब जेसी—608099एन)	01 जुलाई 2016
हवलदार बिरेन्द्र कुमार थापा	(सं. 5247277एच अब जेसी—608100एक्स)	01 जुलाई 2016
हवलदार खिल बहादुर गुरुंग	(सं. 5247915डब्ल्यू अब जेसी—608101ए)	01 जुलाई 2016
हवलदार केहर सिंह सिंगजाली	(सं. 5247657एच अब जेसी—608102एच)	01 जुलाई 2016
हवलदार प्रभु थापा	(सं. 5247088वाई अब जेसी—608103एल)	01 जुलाई 2016
हवलदार फट्टा बहादुर मान्धार	(सं. 5247267वाई अब जेसी—608104एन)	01 जुलाई 2016
हवलदार डमर बहादुर थापा	(सं. 5247299एफ अब जेसी—608105डब्ल्यू)	01 अगस्त 2016
हवलदार भरत कुमार श्रेष्ठा	(सं. 5248018एम अब जेसी—608106वाई)	01 अगस्त 2016
हवलदार राविन खंडेल	(सं. 5248026एल अब जेसी—608107एफ)	01 अगस्त 2016
हवलदार मनदिप तामंग	(सं. 5248034के अब जेसी—608108के)	03 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016)		
हवलदार सुख बहादुर गुरुंग	(सं. 5246882के अब जेसी—608109एम)	01 सितम्बर 2016
हवलदार पूर्णा राज थापा	(सं. 5246888एल अब जेसी—608110एफ)	01 सितम्बर 2016
हवलदार सूरज थापा	(सं. 5247024एन अब जेसी—608111के)	01 सितम्बर 2016
हवलदार दन बहादुर थापा	(सं. 5247071एल अब जेसी—608112एम)	01 सितम्बर 2016
3 गोरखा राईफल्स		
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार हरी बहादुर खत्री	जेसी 629807एच	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार दिपक बहादुर क्षेत्री	जेसी 629865एम	01 नवम्बर 2014

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार थमन बहादुर थापा	जेसी 630038डब्ल्यू	01 जून 2014
नायब सूबेदार लाल बहादुर ठकुरी	जेसी 630088एफ	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार नीर बहादुर क्षेत्री	जेसी 630042वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार प्रेम बहादुर खडका	जेसी 630018एच	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) इन्द्रमोहन स्वर्गीअरी	जेसी 629872एच	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) सुरेन्द्र कुमार	जेसी 629877एफ	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार नारायण बहादुर थापा	जेसी 62992एफ	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर केसी	जेसी 630027के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार धन बहादुर थकुरी	जेसी 630089के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार प्रेम बहादुर बम	जेसी 630000एम	03 सितम्बर 2014*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चन्द्र बहादुर मल्ल	जेसी 630001पी	03 सितम्बर 2014*
---------------------------------	---------------	------------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महादेव शाह	जेसी 630028एम	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार खिम बहादुर मल्ल	जेसी 630024डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार नर बहादुर क्षेत्री	जेसी 630002एक्स	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार जनक बहादुर खत्री	जेसी 630047एक्स	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार ऋषि बहादुर थापा	जेसी 630048ए	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार खडक बहादुर कुंवर	जेसी 630031एम	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर थापा	जेसी 630034ए	05 नवम्बर 2014*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर खडका	जेसी 630003ए	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार मीन बहादुर केसी	जेसी 630035एच	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार लक्ष्य बहादुर अधिकारी	जेसी 630032पी	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार प्रेम बहादुर क्षेत्री	जेसी 630090वाई	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार टेक बहादुर क्षेत्री	जेसी 630101ए	01 दिसम्बर 2014

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रेम बहादुर खडका क्षेत्री	सं. 5847632एम अब जेसी 630156के	01 जुलाई 2014
हवलदार (लिपिक) गुलबिर सिंह	सं. 5847374एक्स अब जेसी 630157एम	01 अगस्त 2014
हवलदार (लिपिक) बिहारी लाल	सं. 5847991एफ अब जेसी 630158पी	01 अगस्त 2014
हवलदार (लिपिक) नरेश कुमार	सं. 5848002वाई अब जेसी 630159एक्स	01 अगस्त 2014
हवलदार हरि बहादुर क्षेत्री	सं. 5847527डब्ल्यू अब जेसी 630160एम	01 अगस्त 2014
हवलदार कुमार क्षेत्री	सं. 5848087ए अब जेसी 630161पी	01 अगस्त 2014
हवलदार अम्बर काजी अधिकारी	सं. 5847752एल अब जेसी 630162एक्स	03 सितम्बर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)

हवलदार नर बहादुर कुंवर	सं. 5847854एफ अब जेसी 630163ए	03 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदारके रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लेख बहादुर शाही	सं. 5847848एन अब जेसी 630164एच	01 सितम्बर 2014
हवलदार कृष्णा प्रसाद रेग्मी	सं. 5847633पी अब जेसी 630165एल	01 सितम्बर 2014
हवलदार अजय कुमार	सं. 5847879एफ अब जेसी 630166एन	01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदारके रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सोम बहादुर खडका	सं. 5848024एक्स अब जेसी 630167डब्ल्यू	04 अक्टूबर 2014*
*(नायब सूबेदारके रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सुशील कुमार क्षेत्री	सं. 5847927एच अब जेसी 630168वाई	01 नवम्बर 2014
हवलदार जगत बहादुर बोहरा	सं. 5847434एफ अब जेसी 630169एफ	01 नवम्बर 2014
हवलदार हरी बहादुर केसी	सं. 5847574एन अब जेसी 630170डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
हवलदार यम बहादुर बस्नेत	सं. 5848064वाई अब जेसी 630171वाई	01 नवम्बर 2014
हवलदार सुरेन्द्र कार्की	सं. 5847474के अब जेसी 630172एफ	05 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदारके रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार केशर बहादुर भण्डारी	सं. 5847649ए अब जेसी 630173के	01 दिसम्बर 2014
हवलदार संजय मल्ल	सं. 5847293एक्स अब जेसी 630174एम	01 दिसम्बर 2014
हवलदार तेजेन्द्र सिंह थकुरी	सं. 5848028एन अब जेसी 630175पी	01 दिसम्बर 2014
हवलदार नर बहादुर खडका	सं. 5848140ए अब जेसी 630176एक्स	01 दिसम्बर 2014
हवलदार समर बहादुर क्षेत्री	सं. 5848146एफ अब जेसी 630177ए	01 दिसम्बर 2014
हवलदार रुद्र बहादुर कार्की	सं. 5847651एक्स अब जेसी 630178एच	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार धबाल बहादुर कार्की	जेसी 629822एक्स	01 फरवरी 2015
सूबेदार रमेश कुमार थापा	जेसी 629936एच	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)		
सूबेदार लक्ष्मन सिंह थापा	जेसी 629794डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2015
सूबेदार भिम बहादुर भण्डारी	जेसी 629875डब्ल्यू	01 नवम्बर 2015
सूबेदार हेम चन्द्र कोईराला	जेसी 629793एन	01 दिसम्बर 2015
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार ओम बहादुर खत्री	जेसी 630011वाई	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार चन्द्र किरन शाही	जेसी 630012एफ	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार गोबिन्द बहादुर खत्री	जेसी 630025वाई	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर कुंवर	जेसी 630037एन	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार बेग बहादुर केसी	जेसी 630039वाई	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रित बहादुर बस्नेत	जेसी 630056वाई	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार पदम बहादुर थापा	जेसी 630057एफ	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार कमल विक्रम सेन	जेसी 630049एच	01 जनवरी 2015

नायब सूबेदार मित बहादुर कार्की	जेसी 630050एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार बेल बहादुर थापा	जेसी 630102एच	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार डोल बहादुर घर्ती	जेसी 630107एफ	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार गंगा बहादुर थापा	जेसी 630108के	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार प्रेम बहादुर अधिकारी	जेसी 630109एम	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) एम काथिरवेल मुर्गन	जेसी 629898एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार तुल बहादुर थापा	जेसी 630043एफ	02 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार युबाराज क्षेत्री	जेसी 630026एफ	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार किशन क्षेत्री	जेसी 630033एक्स	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार कुमार क्षेत्री	जेसी 630058के	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर रिमाल	जेसी 630066एच	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार कुल बहादुर खत्री	जेसी 630041डब्ल्यू	02 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार टोप बहादुर मल्ल	जेसी 630051ए	03 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रणधिर कुमार	जेसी 630073वाई	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार हरि कर्न राया माझी क्षेत्री	जेसी 630040एन	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेन्द्र क्षेत्री	जेसी 630052एच	07 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रोहित क्षेत्री	जेसी 630079ए	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार मेघनाथ कुंवर	जेसी 630065ए	01 मई 2015
नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर टण्डन	जेसी 630067एल	01 मई 2015
नायब सूबेदार रतन मुखिया	जेसी 630044के	30 जुलाई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बम बहादुर क्षेत्री	जेसी 630045एम	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार देव बहादुर भण्डारी	जेसी 630063पी	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) पूरन सिंह	जेसी 629902पी	01 दिसम्बर 2015

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार (लिपिक) दिपक खनाल	सं. 5848003एफ अब जेसी 630179एल	01 जनवरी 2015
हवलदार मीन बहादुर थापा	सं. 5847587एल अब जेसी 630180ए	01 जनवरी 2015
हवलदार डोर बहादुर खत्री	सं. 5847528वाई अब जेसी 630181एच	01 जनवरी 2015
हवलदार खडगा बहादुर शाही	सं. 5847695पी अब जेसी 630182एल	01 जनवरी 2015
हवलदार नीर बहादुर क्षेत्री	सं. 5848050वाई अब जेसी 630183एन	01 जनवरी 2015
हवलदार सुजेन्द्र बहादुर क्षेत्री	सं. 5848069एक्स अब जेसी 630184डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
हवलदार भुपेन्द्र लिमिचाना	सं. 5847711एफ अब जेसी 630185वाई	01 जनवरी 2015
हवलदार गिर बहादुर केसी	सं. 5847701एक्स अब जेसी 630186एफ	01 जनवरी 2015
हवलदार चेता बहादुर बस्नेत	सं. 5848106ए अब जेसी 630187के	02 फरवरी 2015*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी)

हवलदार मीन बहादुर क्षेत्री	सं. 5852080एन अब जेसी 630188एम	01 जनवरी 2015
हवलदार विजोय क्षेत्री	सं. 5847688वाई अब जेसी 630189पी	01 जनवरी 2015
हवलदार कृष्णा बहादुर खडका	सं. 5848102के अब जेसी 630190के	01 जनवरी 2015
हवलदार तुक बहादुर खान	सं. 5848154एल अब जेसी 630191एम	01 जनवरी 2015
हवलदार खेम राज गौतम	सं. 5848167एक्स अब जेसी 630192पी	02 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय सिंह, सेना मेडल	सं. 5847925एक्स अब जेसी 630193एक्स	01 फरवरी 2015
हवलदार पारस क्षेत्री	सं. 5847995डब्ल्यू अब जेसी 630194ए	01 फरवरी 2015
हवलदार भविन्द्र बहादुर क्षेत्री	सं. 5848148एम अब जेसी 630195एच	06 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रेम बहादुर क्षेत्री	सं. 5848182ए अब जेसी 630196एल	01 फरवरी 2015
हवलदार नवीन कुमार खडका	सं. 5847789एम अब जेसी 630197एन	27 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार अर्जन बहादुर खान्ड	सं. 5847775के अब जेसी 630198डब्ल्यू	27 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार खुम बहादुर बस्नेत	सं. 5848169एच अब जेसी 630199वाई	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार मनोज क्षेत्री	सं. 5848184एक्स अब जेसी 630200एच	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार भरत बहादुर खत्री	सं. 5848114वाई अब जेसी 630201एल	21 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार किर्तीमान खत्री	सं. 5847562वाई अब जेसी 630202एन	01 मई 2015
हवलदार गुप्ता बहादुर सिंह	सं. 5847613एफ अब जेसी 630203डब्ल्यू	01 मई 2015
रंगरूट (आर टी) दिपक राज पथी	सं. 630204वाई अब जेसी 630204वाई	26 सितम्बर 2015
हवलदार निर्मल कुमार खडका	सं. 5848067एम अब जेसी 630205एफ	30 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार टक बहादुर भण्डारी	सं. 5847705एन अब जेसी 630206के	18 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार कमल बहादुर केसी	सं. 5848176एम अब जेसी 630207एम	01 अक्टूबर 2015
हवलदार (लिपिक) विजेन्द्र कुमार	सं. 5753759डब्ल्यू अब जेसी 630208पी	01 दिसम्बर 2015
हवलदार इन्द्र बहादुर कार्की	सं. 5848181एक्स अब जेसी 630209एक्स	01 दिसम्बर 2015
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार भविन्द्रा विक्रम शाही	जेसी 629867एक्स	01 जनवरी 2016
सूबेदार रविन्द्र सिंह भण्डारी	जेसी 629913एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार लेख बहादुर केसी	जेसी 629927एफ	02 फरवरी 2016*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी)		
सूबेदार तिलक पौडेल	जेसी 629960वाई	01 मार्च 2016
सूबेदार मन बहादुर क्षेत्री, शौर्य चक्र	जेसी 629949ए	22 मार्च 2016*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2016 से दी जायेगी)		

सूबेदार भक्ता बहादुर गोदार	जेसी 629935ए	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार लाल बहादुर क्षेत्री	जेसी 629925डब्ल्यू	28 दिसम्बर 2016*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार नर बहादुर खत्री	जेसी 630072डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार	जेसी 630078एक्स	03 जनवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (लिपिक) ओम प्रकाश तेवारी	जेसी 629917एक्स	30 जनवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रदीप खत्री	जेसी 630076एम	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार मीन बहादुर पन्त	जेसी 630077पी	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार बेल बहादुर थापा	जेसी 630064एक्स	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार नवीन मुखीया	जेसी 630074एफ	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार धन बहादुर भण्डारी	जेसी 630075के	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार मल्ल ठकुरी	जेसी 630097एच	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार अरविन कुमार	जेसी 630110एफ	01 मई 2016
नायब सूबेदार रेशम बहादुर अधिकारी	जेसी 630081एक्स	01 जून 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) साबू आर	जेसी 629939डब्ल्यू	01 जून 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) प्रमोद कुमार चौरसिया	जेसी 629961एफ	01 जून 2016
नायब सूबेदार राम चन्द्र अधिकारी	जेसी 630053एल	14 जून 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ठाकुर बम मल्ल	जेसी 630123वाई	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार धुर्ब बहादुर रावल	जेसी 630130पी	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार कुल बहादुर थापा	जेसी 630131एक्स	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार रुद्र बहादुर थापा, सेना मेडल	जेसी 630134एल	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार लक्ष्मना सिंह	जेसी 630137वाई	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार जगत मल्ल	जेसी 630145एक्स	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार अम्बर काजी अधिकारी	जेसी 630162एक्स	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार यम बहादुर बनीया	जेसी 630059एम	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार जीत बहादुर क्षेत्री	जेसी 630060एफ	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार प्रेम बहादुर खडका	जेसी 630061के	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार हरका बहादुर पौडेल क्षेत्री	जेसी 630093एम	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) रवि भुषन सिंह	जेसी 629966ए	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) यदागिरि ततैया नायडु	जेसी 630006एन	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) सुरज मल	जेसी 630106वाई	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) राकेश कुमार द्विवेदी	जेसी 630129ए	01 जुलाई 2016

नायब सूबेदार राम चन्द्र अधिकारी	जेसी 630062एम	05 अगस्त 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (लिपिक) शिव नंदन सिंह यादव	जेसी 630142के	20 अगस्त 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (लिपिक) दिपक सिंह नेगी	जेसी 630143एम	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) राजेश सिंह राना	जेसी 630144पी	08 अगस्त 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (लिपिक) यु साईमोन सिंघा	जेसी 630153डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) गुलबिर सिंह	जेसी 630157एम	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार नर बहादुर कुवर	जेसी 630163ए	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार लेक बहादुर शाही	जेसी 630164एच	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार सुशील कुमार क्षेत्री	जेसी 630168वाई	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार तजेन्द्र सिंह ठकुरी	जेसी 630175पी	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार नीर बहादुर क्षेत्री	जेसी 630183एन	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार निर्मल कुमार खडका	जेसी 630205एफ	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार सुजेन्द्र बहादुर क्षेत्री	जेसी 630184डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार लोक बहादुर थापा	जेसी 630068एन	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार केशर बहादुर शाही	जेसी 630111के	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार चेता बहादुर बस्नेत	जेसी 630187के	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार खेम राज गौतम	जेसी 630192पी	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार भविन्द्र बहादुर क्षेत्री	जेसी 630195एच	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार गंगा बहादुर बस्नेत	जेसी 630069डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार यामेन्द्र सेन	जेसी 630070एल	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार बिनोद बहादुर लौडारी	जेसी 630095एक्स	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार बिस्नु हरि पौडेल	जेसी 630099एन	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार प्रकाश न्युपाने	जेसी 630100एक्स	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार दिल बहादुर जीटी	जेसी 630115ए	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार घन बहादुर क्षेत्री	जेसी 630080पी	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (लिपिक) बिहारी लाल	जेसी 630158पी	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार खुम बहादुर बस्नेत	जेसी 630199वाई	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर खत्री	जेसी 630087वाई	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार रुद्र बहादुर थापा	जेसी 630104एन	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार हुम बहादुर गोदार	जेसी 630116एच	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार मित्रा लाल न्युपाने	जेसी 630086डब्ल्यू	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार राजेश खत्री	जेसी 630112एम	23 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार रादजीत मल्ल	जेसी 630096ए	01 दिसम्बर 2016

नायब सूबेदार ऋषि राम गौतम	जेसी 630105डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार उदय चन्द्र दहाल	जेसी 630114एक्स	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार टेक बहादुर	जेसी 630091एफ	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार अमर बहादुर खत्री	जेसी 630113पी	25 दिसम्बर 2016

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ज्ञान बहादुर क्षेत्री	सं. 5848218ए अब जेसी 630210एम	03 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार दान बहादुर क्षेत्री	सं. 5847486वाई अब जेसी 630211पी	18 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) हरिन्दर कुमार	सं. 5848262वाई अब जेसी 630212एक्स	12 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार शंकर खडका	सं. 5847683ए अब जेसी 630213ए	01 फरवरी 2016
हवलदार गंगा बहादुर खडका	सं. 5847656डब्ल्यू अब जेसी 630214एच	01 फरवरी 2016
हवलदार रन बहादुर भण्डारी	सं. 5847675एफ अब जेसी 630215एल	25 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह क्षेत्री	सं. 5847903वाई अब जेसी 630216एन	01 मार्च 2016
हवलदार सतीश	सं. 5847913एच अब जेसी 630217डब्ल्यू	01 मार्च 2016
हवलदार भोज बहादुर मल्ल	सं. 5848044एल अब जेसी 630218वाई	01 मार्च 2016
हवलदार कृष्ण राज छिमाल	सं. 5847940एम अब जेसी 630219एफ	02 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) विरेन्द्र कुमार यादव	सं. 5848163एफ अब जेसी 630220डब्ल्यू	03 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालें बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) मोहन सिंह	सं. 5848190एल अब जेसी 630221वाई	01 जून 2016
हवलदार टाईगर जुमली	सं. 5847477डब्ल्यू अब जेसी 630222एफ	01 जून 2016
हवलदार (लिपिक) दिलवर सिंह	सं. 5848193वाई अब जेसी 630223के	05 जुलाई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) सतीश कुमार राय	सं. 5848285एल अब जेसी 630224एम	01 जुलाई 2016
हवलदार (लिपिक) राज कुमार	सं. 5848342एफ अब जेसी 630225पी	01 जुलाई 2016
हवलदार (लिपिक) राम चन्द्र	सं. 5848351एच अब जेसी 630226एक्स	01 जुलाई 2016
हवलदार हुम बहादुर क्षेत्री	सं. 5847665एक्स अब जेसी 630227ए	01 जुलाई 2016
हवलदार टेक बहादुर खत्री	सं. 5847672ए अब जेसी 630228एच	01 जुलाई 2016
हवलदार यम बहादुर बिष्ट खत्री	सं. 5848205एच अब जेसी 630229एल	01 जुलाई 2016
हवलदार सुर्या बहादुर खत्री	सं. 5848202पी अब जेसी 630230ए	01 जुलाई 2016
हवलदार नरेन्द्र कुमार जी सी	सं. 5848208डब्ल्यू अब जेसी 630231एच	01 जुलाई 2016
हवलदार संजया बिक्रम खत्री	सं. 5848410के अब जेसी 630232एल	01 जुलाई 2016
हवलदार मन बहादुर भण्डारी	सं. 5848210एन अब जेसी 630233एन	01 जुलाई 2016
हवलदार पदम बहादुर रेग्मी	सं. 5848240एल अब जेसी 630234डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
हवलदार शालिग्राम भण्डारी	सं. 5848264पी अब जेसी 630235वाई	01 जुलाई 2016
हवलदार राजु कुमार कुवंर	सं. 5848279एक्स अब जेसी 630236एफ	01 जुलाई 2016
हवलदार सुर्य बहादुर हमाल	सं. 5848280एम अब जेसी 630237के	01 जुलाई 2016

हवलदार तारा किरन शाही	सं. 5848283ए अब जेसी 630238एम	01 जुलाई 2016
हवलदार (लिपिक) सावन्त राजेन्द्र शंकर	सं. 5848341वाई अब जेसी 630239पी	01 अगस्त 2016
हवलदार (लिपिक) विनोद कुमार सैनी	सं. 5848442एम अब जेसी 630240के	01 अगस्त 2016
हवलदार गोपाल बहादुर क्षेत्री	सं. 5847654एल अब जेसी 630241एम	04 अगस्त 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) प्रदीप कुमार	सं. 5848361एम अब जेसी 630242पी	09 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) नेत्रपाल सिंह	सं. 5848598के अब जेसी 630243एक्स	01 सितम्बर 2016
हवलदार (लिपिक) गोपाल बहादुर	सं. 5848601वाई अब जेसी 630244ए	01 सितम्बर 2016
हवलदार धरम विर सिंह	सं. 5847988ए अब जेसी 630245एच	01 सितम्बर 2016
हवलदार संता बहादुर खडका	सं. 5847944एच अब जेसी 630246एल	01 सितम्बर 2016
हवलदार नल बहादुर कुंवर	सं. 5848284ए अब जेसी 630247एन	01 सितम्बर 2016
हवलदार टेक बहादुर अधिकारी	सं. 5848506एम अब जेसी 630248डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
हवलदार ठाकुर प्रसाद गनावाली	सं. 5848291वाई अब जेसी 630249वाई	01 सितम्बर 2016
हवलदार धन प्रसाद पौडेल	सं. 5848289एफ अब जेसी 630250एन	01 सितम्बर 2016
हवलदार ओम बहादुर क्षेत्री	सं. 5848306डब्ल्यू अब जेसी 630251डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
हवलदार अमर दीप क्षेत्री	सं. 5848346एक्स अब जेसी 630252वाई	01 सितम्बर 2016
हवलदार पूरन सिंह	सं. 5848363एक्स अब जेसी 630253एफ	01 सितम्बर 2016
हवलदार (लिपिक) नित्या नन्द सिंह	सं. 5848599एम अब जेसी 630254के	01 अक्टूबर 2016
हवलदार जितेन्द्र कुमार	सं. 5847924पी अब जेसी 630255एम	01 अक्टूबर 2016
हवलदार युं बहादुर खत्री	सं. 5847706डब्ल्यू अब जेसी 630256पी	01 अक्टूबर 2016
हवलदार सन्जु खडका	सं. 5847742एफ अब जेसी 630257एक्स	01 अक्टूबर 2016
हवलदार यम बहादुर क्षेत्री	सं. 5847761एम अब जेसी 630258ए	01 अक्टूबर 2016
हवलदार शमसेर बहादुर थापा	सं. 5848508एक्स अब जेसी 630259एच	01 अक्टूबर 2016
हवलदार बिदुर बहादुर कुंवर	सं. 5847945एल अब जेसी 630260एक्स	01 अक्टूबर 2016
हवलदार दुर्गा बहादुर रोका क्षेत्री	सं. 5848269एन अब जेसी 630261ए	01 अक्टूबर 2016
हवलदार रिम बहादुर हमाल ठकुरी	सं. 5848382एच अब जेसी 630262एच	01 अक्टूबर 2016
हवलदार अमर बहादुर क्षेत्री	सं. 5848451एन अब जेसी 630263एल	01 अक्टूबर 2016
हवलदार गोविन्दा बहादुर महत	सं. 5848674एल अब जेसी 630264एन	01 अक्टूबर 2016
हवलदार अमर बहादुर क्षेत्री	सं. 5848307वाई अब जेसी 630265डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2016
हवलदार बबिन्द्रा धोज मल्ल	सं. 5847795ए अब जेसी 630266वाई	01 नवम्बर 2016
हवलदार लेख बहादुर खत्री	सं. 5848311एफ अब जेसी 630267एफ	01 नवम्बर 2016
हवलदार लोक बहादुर शाही	सं. 5848450एल अब जेसी 630268के	01 नवम्बर 2016
हवलदार टिकेन्द्र खडका	सं. 5848545एल अब जेसी 630269एम	01 नवम्बर 2016
हवलदार मम बहादुर कथायत	सं. 5848792वाई अब जेसी 630270एफ	01 नवम्बर 2016
हवलदार मन बहादुर भण्डारी	सं. 5848298एच अब जेसी 630271के	01 नवम्बर 2016

हवलदार पदम बहादुर शाही	सं. 5847948वाई अब जेसी 630272एम	14 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार शिव कुमार ज्यु	सं. 5847871एफ अब जेसी 630273पी	15 दिसम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार डम्बर बहादुर चंद	सं. 5847823एफ अब जेसी 630274एक्स	15 जनवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार हरी बाबू कुंवर	सं. 5848323एफ अब जेसी 630275ए	01 दिसम्बर 2016
हवलदार मिलन क्षेत्री	सं. 5848737एच अब जेसी 630276एच	01 दिसम्बर 2016
हवलदार दिपक बहादुर खत्री	सं. 5848780के अब जेसी 630277एल	01 दिसम्बर 2016
हवलदार कृष्णा क्षेत्री	सं. 5847826पी अब जेसी 630278एन	02 जनवरी 2017*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार फटिक बहादुर खत्री	सं. 5848809एफ अब जेसी 630279डब्ल्यू	25 दिसम्बर 2016

टी डी प्रशांत राव
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 193, दिनांक 27 जुलाई 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना
स्थायी आयोग

(2/ले. के पद पर दिनांक 10 जून 1989 से)

शुद्धि—पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च 1990 को 84 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	विलाशराव संजय प्रताप सिंह	आई सी सं. — 48621 डब्ल्यू	इन्फैन्ट्री
पढ़ें	.	संजय प्रतापसिंह विलाशराव	आई सी सं. — 48621 डब्ल्यू	इन्फैन्ट्री

अभिषेक तिवारी
ले. कर्नल
एएमएस 8बी

सेना शाखा

सं. 194, दिनांक 28 जुलाई 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना
स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 12 जून 2004 से)

शुद्धि—पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 09 अप्रैल 2005 को 114 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	—	संदीप धनकर	आई सी—64063के	मैक इन्फैन्ट्री
पढ़ें	—	संदीप धनखर	आई सी—64063के	मैक इन्फैन्ट्री

(2/ले. के पद पर दिनांक 11 जून 1994 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 08 अप्रैल 1995 को 94 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	जितेन्द्रा घईया	आई सी-52814एन	एएससी
पढ़े	—	जितेन्द्र घईया	आई सी-52814एन	एएससी

(2/ले. के पद पर दिनांक 09 जून 1990 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग 2/लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 01 जून 1991 को 86 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	विवेक पाठक	आई सी-49562एफ	सिग्नल्स
पढ़े	—	विवेक फाटक	आई सी-49562एफ	सिग्नल्स

(2/ले. के पद पर दिनांक 07 दिसम्बर 1996 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 01 मई 1999 को 99 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	गुरकृपाल सिंह	आई सी-56787एम	एएससी
पढ़े	—	गुरकृपाल सिंह गिल	आई सी-56787एम	एएससी

(2/ले. के पद पर दिनांक 14 जून 1986 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग 2/लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 29 सितम्बर 1988 को 78 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	प्रभु मकरन्द वसंत	आई सी-43960एम	आर्टी
पढ़े	—	मकरन्द वसंत प्रभु	आई सी-43960एम	आर्टी

प्रकाश कुमार सिंह
मेजर
एमएस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd September 2017

AIR BRANCH

No. 188, dated 20th July 2017—The President is pleased to make the following appointments:-

PRESIDENT'S STAFF

623697-R MWO (Retd) & Hony Flt Lt Bipin Pandey, as Honorary ADC to the President of India for life with effect from 24 Jun 2016.

624613-F MWO (Retd) & Hony Fg Offr Upendra Nayak as Honorary ADC to the President of India for life with effect from 24 Apr 2017.

UK TIWARI
Under Secretary

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 189, dated 21st July 2017—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their name in the Pay Scale of ₹ 15600-39100 (Pay Band-3)+Grade Pay ₹ 5400/- :—

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2014AB1042	Ms. Sonal Lucy	GTRE, Bengaluru	01.08.2014
2014AB1019	Shri Om Kumar Rana	LRDE, Bengaluru	01.08.2014
2015AB1076	Ms. Kittad Deepa	LRDE, Bengaluru	15.12.2015
2015AB1084	Shri Debabrata Naskar	SASE, Chandigarh	07.12.2015
2016AB1003	Ms. Vartika Bajpai	HQ_SPIC, Delhi	21.04.2016
2014AB1026	Shri Dolat Singh	VRDE, Ahmednagar	01.08.2014

The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individual as temporary Scientist 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against his name in the Pay Scale of ₹15,600-39,100(Pay Band-3) + Grade Pay ₹6,600/- :-

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2016AC1003	Shri S Ravindran	HQ_SPIC, Delhi	09.05.2016

The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individual as temporary Scientist 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against his name in the Pay Scale of ₹15,600-39,100(Pay Band-3) + Grade Pay ₹6,600/- :-

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2014AC1002	Shri Manoj Kumar Reddi	CFEES, Delhi	07.07.2014

ANJUM SIDDIQUI
Deputy Director/Pers(DRDS-II)

ARMY BRANCH

No. 190, dated 24th July 2017—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 10 Dec 2016

The undermentioned 315 Gentlemen Cadets of 139 Regular Course (68 DE, 200 Ex NDA and 47 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 10 Dec 2016 except one GC, GC D/46515 (IC No. 82396Y) Rohit Singh was withheld as he was LMC at the time of POP. However, GC D/46515 (IC No. 82396Y) Rohit Singh

was granted permanent commission wef 23 Mar 2017 after becoming S1H1A1P1E1, under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82153	N	MALLA RAMA GOPAL NAIDU	INF
82154	W	SUYASH GUPTA	INF
82155	Y	PRATYUSH KUMAR MOHANTY	INF
82156	F	ABHISHEK KUNDLIA	INF
82157	K	SUNIL RANA	AC
82158	M	LOPINTI PRITAM KUMAR REDDY	ARTY
82159	P	ANUP BHATT	SIGS
82160	K	RAKESH YADAV	ARTY
82161	M	SHARAD SHARMA	ENGRS
82162	P	PAWAN KUMAR RAO	ARTY
82163	X	PUSHPENDRA KUMAR YADAV	EME
82165	H	AJAY PRAKASH	INF
82166	L	ABHISHEK JAIN	ARTY
82167	N	VIVEK PAHAL	ASC
82168	W	NITISH SHARMA	ARTY
82169	Y	YUVRAJ SINGH	ARTY
82170	N	J RANJITH KUMAR	ARTY
82171	W	SUDHANSHU SHARMA	INF
82172	Y	VISHAL DABAS	INF
82173	F	SHUBHAM GAUTAM	ASC
82174	K	ARYAN GAUTAM	AAD
82175	M	IYANRAJ M	AOC
82176	P	MONU	MECH
82177	X	RAHUL SINGH RANA	ENGRS
82178	A	PIYUSH ABHISHEK	INF
82180	X	AVINASH	ARTY
82182	H	ABHIJITH M S	INF
82183	L	ROHIT RATHORE	AC
82184	N	ANURAG KHASA	MECH
82185	W	VAISHAKH GOPAN	INF
82186	Y	ASHWANI KANDPAL	INF
82187	F	AMIT JOSHI	MECH
82188	K	RAVI KUMAR	INF
82189	M	SHANTANU MOHAN	AC
82190	F	AMIT KUMAR YADAV	INF
82191	K	ABHISHEK BHARDWAJ	ARTY
82192	M	KUNDAN KUMAR	EME
82193	P	MUNESH KAUSHIK	SIGS
82194	X	MOHIT SAINI	AAD

82195	A	PRASHANT	ASC
82196	H	KAPIL KUNDU	ASC
82197	L	UJJWAL KAUSHIK	ARTY
82198	N	SHOBHIT BISHT	INF
82199	W	DHANANJAY SIDDAPPA MALI	ARTY
82200	A	ABHIRAJ SINGH SANDHU	ARTY
82201	H	LALIT UPMANYU	ARTY
82202	L	SAMARTH M GANGAPURE	ARTY
82203	N	ANKUSH SINGH	ENGRS
82204	W	ABHISHEK SHUKLA	INF
82205	Y	NISHANT RAVI	ARTY
82206	F	MANOJ M	AOC
82208	M	GURSIMRANJEET SINGH	INT
82209	P	ANIL GANGOLA	AC
82210	K	YOGENDER RUHIL	AAD
82211	M	DHANANJAY JAMWAL	INF
82212	P	NAVNEET BAJPAI	MECH
82213	X	VATTI CHANDRA KUMAR	INF
82214	A	HARDEEP SINGH	AOC
82215	H	RAHUL BABAR	INF
82216	L	SATPAL SINGH	INF
82217	N	ROHIT SANGWAN	AC
82218	W	ASHISH CHOUDHARY	MECH
82219	Y	SATENDRA SHARMA	AC
82220	N	TUSHAR GUPTA	ARTY
82221	W	SHUBHAM CHAUHAN	ARTY
82222	Y	JASKARAN SINGH	ARTY
82223	F	MANMEET SINGH	INF
82224	K	SHUBHAM TRIPATHI	SIGS
82225	M	PANKAJ KUMAR	ARTY
82226	P	MOIRANGTHEM JOHNSON SINGH	INF
82227	X	VIKAS	INF
82228	A	SAURAV BHARTI	INF
82229	H	PANKAJ SHARMA	INF
82230	X	SAMEER RAJENDRA KELHE	INF
82231	A	AKSHEY KUMAR	ASC
82232	H	JITENDER KUMAR	INT
82233	L	JAGRAJ SINGH	AOC
82234	N	PINAK PANI	ENGRS
82235	W	ARJUN NAIR	AVN

82236	Y	DHEERAJ SHARMA	EME
82237	F	SEWAK RAI	ASC
82239	M	GAUTAM DEV SINGH	ENGRS
82240	F	VIPUL CHAUHAN	ARTY
82241	K	KARAJ SINGH	INF
82242	M	ANKIT KUMAR GUPTA	INF
82243	P	ANMOLDEEP BHULLAR	AAD
82244	X	KARTHIK JASWAL	INF
82245	A	DEEPAK DAHIYA	AAD
82246	H	ZEESHAN ALAM	ARTY
82247	L	SAURABH SINGH	INF
82248	N	VIJAY KUMAR	AAD
82249	W	GOURAV GUDWANI	ARTY
82250	L	JERRY M J	ARTY
82252	W	ABHISHEK SINGH THAKUR	MECH
82253	Y	BUDDHI MAN LIMBU	AOC
82254	F	SHUBHENDU SHARMA	ARTY
82255	K	DIPENDRA SINGH SHEKHAWAT	AAD
82256	M	VINOD KUMAR	ARTY
82257	P	SHASHANK TYAGI	MECH
82258	X	BIKRAM SINGH	AOC
82259	A	KAMAL SHARMA	EME
82261	X	DEEPAK GODARA	INF
82262	A	ABHYUDAY PRAKASH	AAD
82263	H	SATYAM SINGH	ARTY
82264	L	RAMESHWAR DAYAL MEENA	SIGS
82265	N	SUNIL	EME
82266	W	DEEPENDRA SINGH	ARTY
82267	Y	RAHUL RANA	ARTY
82268	F	RAUSHAN KUMAR	ARTY
82269	K	DIGVIJAY SINGH BHANDARI	ENGRS
82270	Y	AMIT RAINA	INF
82271	F	SALIL SHARMA	AC
82272	K	KANCHAN THAPA	ASC
82273	M	ARPIT SHARMA	INF
82274	P	RAKESH CHOUDHARY	INF
82275	X	AKAASH PANDEY	AC
82276	A	SHASHANK SHEKHAR SHARMA	ASC
82277	H	JITENDER YADAV	INF
82279	N	RAVI VEDWAN	INF
82280	H	ANKIT THAKUR	ARTY
82281	L	ADITYA THAKUR	INF

82282	N	SHUBHAM THAKUR	INF
82283	W	KARANVIR SINGH RANA	ARTY
82284	Y	VIVEK R S	INF
82285	F	AMITESH MISHRA	ARTY
82286	K	VISHWANATH KESHAV BHOI	AVN
82287	M	RAVI SAHU	INF
82288	P	ANIL KUMAR KHATRI	ARTY
82289	X	ANKIT CHHIPA	INF
82290	M	HIMANSHU PANDEY	INF
82291	P	ARUN KUMAR	AAD
82292	X	HARMANDEEP SINGH BRAR	AAD
82293	A	ABHINAV ANAND	ARTY
82294	H	RAJAT SINGH	AC
82295	L	DEEPANKUL ANAND	AOC
82296	N	AMANDEEP SINGH	INF
82299	F	ATISH KUMAR SINGH	EME
82300	L	GAURAV SINGH	INF
82301	N	AJAY PRATAP SINGH TOMAR	AC
82302	W	UMESH PRASAD	INF
82303	Y	SACHIN NAUDIYAL	ENGRS
82304	F	SAHIL KUMAR	ARTY
82305	K	KSHITIJ PRANJAL SWARNKAR	MECH
82306	M	MAYANK KUMAR	INT
82307	P	SUYASH BALYAN	ASC
82308	X	GAURAV SINGH CHAND	ENGRS
82309	A	DHEERAJ SINGH	ARTY
82310	P	RAGHVENDRA SINGH	INF
82311	X	PANDEY PRAVIN SUDHIR	ARTY
82312	A	HITESH YADAV	ARTY
82313	H	SHARMA RAUMIK KUMAR	ASC
82314	L	ANKIT YADAV	ARTY
82315	N	NAYAN RABHA	AAD
82316	W	ADITYA SHARMA	INF
82318	F	INDRAJEET SINGH	AOC
82319	K	ANKIT DWIVEDI	INF
82320	Y	ABHAY CHANKROLA	MECH
82321	F	VIVEK JOSHI	INF
82322	K	SAURAV SINGH	ARTY
82323	M	SHUBHANKAR DAS SHARMA	AVN
82324	P	ANANDU GS	ARTY

82325	X	SANTOSH KUMAR SAHU	EME
82326	A	FAISAL KHAN	INF
82327	H	ARNAV KOHLI	INF
82328	L	ANSHUL DAGAR	ENGRS
82329	N	AYUSH JOSHI	ARTY
82331	L	UMMER FAYAZ	INF
82332	N	KARTIK DHAGAT	AC
82334	Y	PARV MALIK	ARTY
82335	F	MANJEET MUDGAL	ARTY
82336	K	SANTOSH SINGH	AC
82337	M	RAJAT CHAUHAN	AAD
82338	P	ANANTH BIJU	ARTY
82339	X	RAKESH	ARTY
82340	M	AJIT KUMAR RAI	SIGS
82341	P	SUNNY CHAHAR	AC
82342	X	EKANT	ASC
82343	A	AKASH MISHRA	INF
82344	H	SIDDHARTH LAAD	AAD
82345	L	VAIBHAV PANDEY	INF
82346	N	KIRAN P JOSE	INF
82347	W	GURPREET SINGH	ARTY
82348	Y	PANKAJ KUMAR	MECH
82349	F	BASAVAPRABHU J SANKANAGOUDAR	INF
82350	W	SUDHIR SINGH	AAD
82351	Y	AKSHAY KUMAR	INF
82352	F	ANKUSH PANDEY	ARTY
82353	K	BHAVNEET SINGH	AOC
82354	M	RANA	ASC
82355	P	KANHAIYA LAL MEENA	INF
82356	X	NIRAJ KUMAR DUBEY	INT
82357	A	MANOJ SINGH CHAUHAN	ASC
82358	H	NIKHIL SAJWAN	AAD
82359	L	PUNEET KUMAR	ARTY
82360	A	AJAY SINGH	AC
82361	H	ANUJ VERMA	INF
82363	N	RAHUL KUMAR SINGH KUSHWAH	ARTY
82364	W	VISHAL YADAV	ARTY
82365	Y	SUDHANSHU SHEKHAR MISHRA	INF
82366	F	MOHD AHMED KHAN	ENGRS
82367	K	AJAY SHARMA	ARTY
82368	M	ABHISHEK BISHT	INF

82369	P	DEEPAK PHOGAT	SIGS
82370	K	NARENDRA SINGH	ARTY
82371	M	ANTRIKSH MAHOTRA	INF
82372	P	HINDURAO BHOSLE	EME
82373	X	VISHAL GUJJAR	INF
82374	A	PRANNOY MENGI	ENGRS
82376	L	AYUSH KAVITYAL	ARTY
82377	N	AKSHAYDEEP SINGH GILL	INF
82378	W	PANKAJ TRIPATHI	AC
82379	Y	UMESH SHANKAR SINGH TOMAR	ARTY
82381	W	MANISH PAL	ASC
82382	Y	SHUBHAM	INF
82384	K	ARYA PANDE	INF
82385	M	MANJEET	AAD
82386	P	AVINASH MISHRA	AAD
82387	X	SHUBHAM THAPA	INF
82388	A	MADHURYA MALIK	ARTY
82389	H	MRINAL SHARMA	ENGRS
82390	X	SUBRATA KR DEB	AAD
82391	A	CHANDAN KUMAR	INF
82392	H	ADEESH SIHOL	MECH
82393	L	PUNIT YADAV	AAD
82395	W	ANKIT YADAV	MECH
82396	Y	ROHIT SINGH	ARTY
82397	F	PREM SHUKLA	ASC
82398	K	VAIBHAV	ARTY
82399	M	BISEN VINAY CHARAN	ARTY
82401	Y	BHANU PRATAP	ARTY
82402	F	SHUBHAM KHER	EME
82403	K	ANURAG SAWARNI	INF
82404	M	ANKIT KUMAR	ARTY
82405	P	SHIVAM GARG	INF
82408	H	AJAY DIXIT	SIGS
82409	L	GAURAV	MECH
82411	H	ADITYA KUMAR	AC
82412	L	AKASH MAHESHWARI	ARTY
82413	N	SHAILESH KUMAR PANDEY	EME
82414	W	ASHISH GOSWAMI	ARTY
82417	K	SAHAJ WADHAWAN	INF
82418	M	DIVY SHAKTI SINGH BISHT	INF
82419	P	HARIPRASADA	INF

82420	K	MANOHAR SINGH	INF
82421	M	ARBIND KUMAR GUPTA	SIGS
82422	P	MAYANK VIRMANI	ARTY
82423	X	UMESH KUMAR YADAV	INF
82424	A	MOHNISH KUMAR	INF
82425	H	PATIL SHREYAK ATUL	ENGRS
82426	L	AKSHAY PRASHAR	ARTY
82427	N	VIKRAMADITYA SINGH RATHORE	INF
82429	Y	SANAL S NAIR	ASC
82430	N	PRALAY KUMAR TRIVEDI	ENGRS
82431	W	GIDEON TUNGDIM ZOU	AOC
82432	Y	MANNE NIKHIL	INT
82433	F	N ANIL KUMAR	ASC
82434	K	MANAAL CHAUHAN	INF
82435	M	TARUN KUMAR MUNNA	INF
82436	P	ANKAJ KUMAR	INF
82437	X	KARTHIK U	ARTY
82438	A	ARUN KUMAR	AAD
82439	H	VISHWAJEET NAGAR	AOC
82440	X	AJIT PRATAP SINGH YADAV	AC
82441	A	ROHIT KUMAR	AC
82442	H	RAJAT RAJAIN	ARTY
82444	N	AKASH MALIK	SIGS
82445	W	PRAVEEN KUMAR	ARTY
82447	F	GOVIND SINGH	ARTY
82449	M	ABNAM KUMAR	ASC
82450	F	AKASH BANSAL	INF
82451	K	ABHISHEK CHAUHAN	AC
82452	M	A UDHAYA KUMAR	INF
82453	P	CHIRAG VASHISHTH	ARTY
82454	X	YASHVIR SINGH	ARTY
82455	A	NONGMAITHEM RAKESHKUMAR SINGH	INF
82456	H	NEERAJ SINGH NEGI	INF
82457	L	ASHUTOSH YADAV	ARTY
82458	N	NIKHIL NAGAR	AAD
82460	L	ROMALA AASHESH YADAV	INF
82461	N	AJAY PAL SINGH	AAD
82462	W	KAMLESH BURANIA	INF
82463	Y	HARSHVARDHAN SINGH RATHORE	MECH
82464	F	YOGESH KUMAR HARMUKH	ENGRS
82465	K	ASHISH KUMAR	MECH

82468	X	AABHAS THAKER	EME
82469	A	ADITYA MISHRA	INT
82470	P	SANDEEP MANIDHAR	ASC
82471	X	SACHIN VERMA	ARTY
82473	H	GUNJAR THAKUR	AOC
82475	N	PRIYANK SINGH	AC
82476	W	ANURAG JHANKRA	ARTY
82477	Y	RAJAT RANA	ARTY
82478	F	HARDEEP SINGH	AAD
82479	K	KAPIL SHARMA	SIGS
82480	Y	JITHIN KUMAR G	INF
82481	F	ANISH DAHIYA	ENGRS
82482	K	SHUCHI PRAKASH RAI	ENGRS
82483	M	VIJAY KUMAR	ARTY
82485	X	REETESH PUN	INF
82487	H	AKASH BALYAN	ARTY
82489	N	PRATEEK KUMAR MISHRA	ARTY
82490	H	SHIVAM	ARTY
82491	L	NIKHIL TIWARI	ASC
82493	W	SOM KARTIKEY PANT	INF
82494	Y	RAMNEEK SINGH BHATIA	INF
82495	F	MOHAN SINGH	INF
82496	K	HARSHIT JANU	AC
82497	M	DEBU KRISHNA SINHA	INF
82498	P	DEEPAK DIXIT	MECH
82499	X	PALLAV YADAV	INF
82500	F	NISHKARSH TRIPATHI	AAD
82501	K	RAHUL KUMAR	EME
82502	M	VIJAY SINGH GURJAR	INF
82503	P	VEENAYAK RAJPUT	MECH
82504	X	CHAVDA RUTURAJ SINH MAHOBATSINH	INF

To be Lts wef 11 Jun 2016

The undermentioned eight Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ABHIT RAI (IC-81503H) AAD seniority next below MRINAL KUMAR (IC-81502A) INF, HARJAS SINGH GILL (IC-81533A) INF seniority next below JASWINDER SINGH (IC-81532X) ASC, AZAN MIRAJ (IC-81542F) ARTY

seniority next below SUMIT KUMAR YADAV (IC-81541Y) MECH, UTKARSH MISHRA (IC-81593P) INF seniority next below SAURABH KUMAR (IC-81592M) INF, ASHISH SINGH (IC-81752F) INF seniority next below MANMEHAK SINGH KHAIRA (IC-81751Y) ARTY, N S PRASUN (IC-81863Y) EME seniority next below SAHIL KASHYAP (IC-81862W) AAD, ROHIT KUMAR OJHA (IC-81905A) INF seniority next below INDRAJIT BHATTACHARJEE (IC-81904X) AAD, TUSHAR BAJPAI (IC-81912W) ARTY seniority next below KULKARNI JATIN JAGDISHRAO (IC-81911N) INT, whose name appeared in the Gazette of India.

To be Lts wef 12 Dec 2015

The undermentioned eight Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ABHISHEK KUMAR SINGH (IC-80902A) INF seniority next above RAVI SOMANAGOUDA MULIMANI (IC-80903H) INF, HARTEJ SINGH RANDHAWA (IC-80910Y) ARTY seniority next below JAG PARVESH (IC-80909K) EME, JAY JOSHI (IC-80979H) INF seniority next below DEEPAK RATHEE (IC-80978A) INF, ABHISHEK DHAWAN (IC-80997L) AAD seniority next below PARMANDER YADAV (IC-80996H) MECH, SHRINIVAS TIMMANNA LENDI (IC-81099Y) ARTY seniority next below ARIJIT BOSE (IC-81098W) SIGS, ANGAD CHAHAL (IC-81145H) SIGS seniority next below KULDEEP SINGH RATHORE (IC-81144A) ARTY, SAMPURNANAND (IC-81156P) ARTY seniority next below SUDHIR YADAV (IC-81155M) AAD, and KULJEET SINGH (IC-81247Y) AC seniority next below KUSHAN DIXIT (IC-811246W) INF whose name appeared in the Gazette of India.

To be Lts wef 13 JUN 2015

The undermentioned Eight Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ROHIT GAUTAM (IC-80221X) AOC seniority next below SUNANDIT MAHAJAN (IC-80220P) ASC COMMA TUSHAAR SHARMA (IC-80325Y) AC seniority next below PUSHPESH CHAND MAHOVIYA (IC-80324W) INF COMMA NARENDER KUMAR (IC-80355W) INF seniority next below BHUVAN UPADHYAY (IC-80354N) MECH COMMA K ASHOK KUMAR (IC-80487K) INF seniority next below KARAN SINGH (IC-80486F) AOC COMMA KARANJEET SINGH JASPAL (IC-80521Y) AC seniority next below VISHNU SINGH (IC-80520W) INF COMMA SUKHPAL SINGH (IC-80524M) MECH seniority next below AMAN DUBEY (IC-80523K) INF COMMA NAIR MOHITH MOHANDAS (IC-80540K) INF seniority next below RAJNISH KUMAR (IC-80539P) AOC COMMA RAHUL SINGH GURJAR (IC-80571K) INF seniority next below NEELABH KHATI (IC-80570F) INF whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned Three Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

TH SHURAJIT SINGH (IC-80257W) ASC seniority next below SUSHANT GARG (IC-80256N) INF COMMA ROHIN JUDE ROCQUE (IC-80303A) MECH seniority next below RAVI KIRAN JAISWAL (IC-80302X) INF COMMA SOUMYA SAKET (IC-80615W) ASC seniority next below RITURAJ SINGH RAWAT (IC-80614N) SIGS whose name appeared in the Gazette of India.

To be Lts wef 11 Jun 2016

The undermentioned Ten Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

N DINESH KUMAR (IC-81499L) INF seniority next below AMAN DHAKA (IC-81498H) AC, SANDEEP KUMAR OLI (IC-81620N) INF seniority next below RAHUL GOYAT (IC-81619Y) ARTY, BHARGAV KALITA (IC-81649W) INF seniority next below SUDARSHAN KUMAR (IC-81648N) ARTY, SOURABH MAHLAWAT (IC-81671F) AOC seniority next below PRATEEK SINGH BISHT (IC-81670Y) ARTY, AYUSH CHAUHAN (IC-81679N) AAD seniority next below PANKAJ KUMAR (IC-81678L) INF, ASHISH ANAND (IC-81721F) EME seniority next below KRISHAN (IC-81720Y) ARTY, DIGVIJAY SINGH JODHA (IC-81767K) AC seniority next below NIRVED MISHRA (IC-81766F) ASC, ADITYA KUMAR SHARMA (IC-81815Y) INF seniority next below SANJAYA BISHNOI (IC-81814W) MECH, AMAN (IC-81821M) INF seniority next below SANTOSH KUMAR (IC-81820K) ENGRS, SANDEEP SINGH KHATANA (IC-81898P) AAD seniority next below AVINASH UPADHYAY (IC-81897M) INF, whose name appeared in the Gazette of India.

To be Lts wef 13 Dec 2014

The undermentioned one Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ASHISH DESHMUKH (IC-79770L) ARTY seniority next below PRATIK BEEDKAR (IC-79769W) SIGS whose name appeared in the Gazette of India.

ABHISHEK TEWARY
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 191, dated 25th July 2017—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 14 Dec 2013

The undermentioned one Gentleman Cadet of 133 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Dec 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

AKSHAY DORA (IC-78462Y) INF seniority next below AVINASH KUMAR (IC-78461W) MECH whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 13 Jun 2015

The undermentioned Two Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

KUNAL KUMAR (IC-80583Y) ARTY seniority next below NAMITESH DIXIT (IC-80582W) INF COMMA SHANTANU GHATPANDE (IC-80621K) INF seniority next below ANAND VIKRAM SINGH (IC-80620F) AAD whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 12 Dec 2015

The undermentioned Twelve Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

KARTIKAY (IC-80924Y) INF seniority next below TUSHAR SHARMA (IC-80923W) MECH COMMA GAUTAM GOEL (IC-80954W) AC seniority next below VIKRAM SINGH KHARB (IC-80953N) AOC COMMA JITENDER SHARMA (IC-81034L) ARTY seniority next below PRANAB M (IC-81033H) AOC COMMA ANUJPOL DEKA (IC-81038F) INF seniority next below SAURABH KUMAR DUBEY (IC-81037Y) SIGS COMMA KUMAR SHIVAM (IC-81068Y) MECH seniority next below SHANTANU NIRANJAN JOSHI (IC-81067W) INF COMMA MILIND (IC-81073K) AC seniority next below NIKHIL BISHNOI (IC-81072F) INF COMMA SAHIL KADIAN (IC-81117W) AC seniority next below VARUN OAK (IC-81116N) AVN COMMA ROSHAN KUMAR JHA (IC-81149Y) AOC seniority next below CHETAN MATHUR (IC-81148W) ARTY COMMA ARSALAN KHAIRUL BASHAR (IC-81174X) ARTY seniority next below AKASH GILANWAT (IC-81173P) INF COMMA DEVESH CHILWAL (IC-81184F) MECH seniority next below KARTIK YADAV (IC-81183Y) AAD COMMA GANESH RADHAKRISHNAN (IC-81253M) ARTY seniority next below DAKSH DHANKHAR (IC-81252K) AC COMMA SOUMYADYOUTI BOSE (IC-81264Y) INF seniority next below ABHISHEK SHARMA (IC-81263W) INF whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 11 Jun 2016

The undermentioned three Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

AMIT SANJAY PATIL (IC-81562P) INF seniority next below SHIVANSHU (IC-81561M) INF, COMMA SUNIL KUMAR YADAV (IC-81595A) AAD seniority next below SUSHIL KUMAR YADAV (IC-81594X) INF, COMMA SAURABH KUMAR PRAJAPATI (IC-81608M) ASC seniority next below SULFIKAR A (IC-81607K) AOC, whose name appeared in the Gazette of India.

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 192, dated 26th July 2017—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

3 GORKHA RIFLES

To Be Subedar Major

Sub Khem Bahadur KC	JC-607564H	01-Sep-14
Sub Dil Bahadur Thapa	JC-607632L	01-Oct-14
Sub Ram Bahadur Gurung	JC-607685K	01-Oct-14
Sub Amar Bahadur Thapa	JC-607690P	01-Nov-14
Sub Ram Bahadur Thapa	JC-607631H	01-Dec-14

To Be Subedar

Nb Sub Min Bahadur Thapa	JC-607907N	01-Jul-14
Nb Sub Padam Bahadur Roka	JC-607910N	01-Jul-14
Nb Sub Ganesh Bahadur Gurung	JC-607940L	01-Jul-14
Nb Sub Gan Bahadur Pun	JC-607941N	01-Jul-14
Nb Sub Tej Bahadur	JC-607942W	01-Jul-14
Nb Sub/Clk Ravi Bhushan Kumar	JC-607798M	01-Jul-14
Nb Sub/Clk Murlidhar Verma	JC-607816K	01-Jul-14
Nb Sub Keshan Prasad Gurung *(Granted seniority in rk of Sub wef 01 Aug 14)	JC-607812N	13-Aug-14*
Nb Sub Jay Bahadur Thapa	JC-607911W	01-Aug-14
Nb Sub Min Bahadur Thapa	JC-607832F	01-Aug-14
Nb Sub Jyoti Bahadur Thapa	JC-607841H	01-Sep-14
Nb Sub Purna Bahadur Gurung	JC-607824H	01-Oct-14
Nb Sub Birendra Thapa	JC-607856L	01-Oct-14
Nb Sub/Clk Munshi Ram Sharma	JC-607881K	01-Oct-14
Nb Sub Dil Bahadur Chidi *(Granted seniority in rk of Sub wef 01 Aug 14)	JC-607912Y	09-Oct-14*

Nb Sub Tark Bahadur Thapa *(Granted seniority in rk of Sub wef 01 Aug 14)	JC-607913F	07-Oct-14*
Nb Sub Amar Bahadur Magar, SM	JC-607839L	01-Nov-14
Nb Sub Balaji Thapa	JC-607943Y	01-Nov-14
Nb Sub Rajendra Pradhan	JC-607947P	01-Nov-14
Nb Sub Tika Bahadur Pun	JC-607949A	01-Nov-14
Nb Sub Sharan Bahadur Thapa	JC-607950P	01-Nov-14
Nb Sub Ghan Bahadur Thapa	JC-607952A	01-Nov-14
Nb Sub Metra Bahadur Gurung	JC-607835P	01-Dec-14
Nb Sub Padam Bahadur Pun	JC-607857N	01-Dec-14
Nb Sub Ram Chandra Gurung	JC-607858W	01-Dec-14
Nb Sub Hom Bahadur Rana Magar	JC-607878K	01-Dec-14
Nb Sub Bhakta Bahadur Thapa	JC-607957Y	01-Dec-14
Nb Sub Gopal Singh Thapa	JC-607960Y	01-Dec-14
Nb Sub Om Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 14)	JC-607965X	29-Dec-14*

To be Naib Subedar

Hav Rajai Gurung *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 May 13)	(No 5247082X now JC-607979X)	24-Jun-13*
Hav Him Bahadur Thapa *(Granted seniority in rk of Nb Sub wef 01 Jun 13)	(No 5246429M now JC-607980M)	18-Jun-13*
Hav Om Bahadur Thapa, SM	(No 5246951P now JC-607981P)	01-Jun-13
Hav Manoj Thapa	(No 5246943W now JC-607982X)	01-Jul-13
Hav Tak Bahadur Rana *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 13)	(No 5246048L now JC-607983A)	13-Aug-13*
Hav Ana Bahadur Thapa *(Granted seniority in rk of Nb Sub wef 21 May 14)	(No 5247104L now JC-608014M)	01-Aug-14*
Hav Dev Kumar Gurung	(No 5247142F now JC-608015P)	01-Aug-14
Hav Som Bahadur Thapa	(No 5246655K now JC-608016X)	01-Aug-14
Hav Rikhi Ram Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 14)	(No 5247183L now JC-608017A)	01-Sep-14*
Hav Bishnu Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Aug 14)	(No 5246677H now JC-608018H)	29-Sep-14*
Hav/Clk Anil Kumar	(No 4072391L now JC-608019L)	01-Sep-14
Hav/Clk Raghu Rai	(No 4072616H now JC-608020A)	01-Sep-14
Hav/Clk Pramod Kumar	(No 4072683N now JC-608021H)	01-Sep-14
Hav Kehar Singh Gharti *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14)	(No 5247221W now JC-608022L)	22-Sep-14*
Hav/Clk Syed Muqeed Ahmed	(No 5246513M now JC-608023N)	01-Oct-14
Hav Dev Kumar Gurung *(Granted seniority in rk of Nb Sub wef 01 Oct 14)	(No 5247152L now JC-608024W)	14-Oct-14*
Hav Durga Bahadur Thapa	(No 5246698Y now JC-608025Y)	01-Oct-14
Hav Prem Kumar Thapa	(No 5246720Y now JC-608026F)	01-Oct-14
Hav Bisnu Bahadur Thapa	(No 5247230X now JC-608027K)	01-Oct-14

Hav/Clk Pradip Kumar Dinda	(No 5246512K now JC-608028M)	01-Nov-14
Hav Ganga Bahadur Galami	(No 5246708X now JC-608029P)	01-Nov-14
Hav Prakash Gurung	(No 5246722K now JC-608030K)	01-Nov-14
Hav Tham Bahadur Gurung	(No 5246723M now JC-608031M)	01-Nov-14
Hav Durga Bahadur Ale	(No 5247743M now JC-608032P)	01-Nov-14
Hav Race Bahadur Rana	(No 5246753K now JC-608033X)	01-Nov-14
Hav Man Bahadur Khamcha	(No 5246869A now JC-608034A)	01-Nov-14
Hav Tek Bahadur Pun	(No 5247159P now JC-608035H)	01-Dec-14
Hav Kuldeep Thapa	(No 5247415Y now JC-608036L)	01-Dec-14
Hav Ramesh Thapa	(No 5247416F now JC-608037N)	01-Dec-14
Hav Hum Bahadur Gurung	(No 5247253Y now JC-608038W)	01-Dec-14
Hav Amar Bahadur Ale *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Dec 14)	(No 5246676A now JC-608039Y)	25-Dec-14*
Hav Santa Bahadur Gurung *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Dec 14)	(No 5246719K now JC-608040N)	25-Dec-14*
Hav Budda Bahadur Shrees *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Dec 14)	(No 5246763N now JC-608041W)	25-Dec-14*

To be Subedar Major

Sub Bir Bahadur Rana	JC-607743H	01-Aug-15
----------------------	------------	-----------

To be Subedar

Nb Sub Sushil Kumar	JC-607843N	01-Jan-15
Nb Sub Krishna Bahadur Thapa	JC-607905H	01-Jan-15
Nb Sub Bishnu Prasad Karmacharya	JC-607916P	01-Jan-15
Nb Sub Laxmi Prasad Budhathoki	JC-607920X	01-Jan-15
Nb Sub Budhi Prasad Thapa	JC-607923L	01-Jan-15
Nb Sub Dal Bahadur Thapa	JC-607924N	01-Jan-15
Nb Sub Durga Bahadur Hamal	JC-607972N	01-Jan-15
Nb Sub/Clk Sobha Ram	JC-607946M	01-Jan-15
Nb Sub/Clk Vere Singh	JC-607956W	01-Jan-15
Nb Sub Prakash Pun	JC-607840A	01-Feb-15
Nb Sub Ram Kumar Shrestha	JC-607844W	01-Feb-15
Nb Sub Tika Ram Rana	JC-607928K	01-Feb-15
Nb Sub Anup Gurung	JC-607958F	01-Feb-15
Nb Sub Basu Dev Pun *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 15)	JC-607973W	02-Feb-15*
Nb Sub/Clk Mukut Lal *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 15)	JC-607959K	02-Feb-15*
Nb Sub Surendra Bahadur Gurung	JC-607850K	01-Mar-15
Nb Sub Dhan Raj Gurung	JC-607917X	01-Mar-15
Nb Sub Laxman Pradhan *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15)	JC-607851M	02-Mar-15*
Nb Sub Deu Prasad Gurung *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15)	JC-607845Y	02-Mar-15*

Nb Sub Tika Prasad Chhantel *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15)	JC-607963M	02-Mar-15*
Nb Sub Min Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15)	JC-607974Y	02-Mar-15*
Nb Sub Chur Bahadur Rana	JC-607975A	01-Mar-15
Nb Sub Bishnu Bahadur Saru *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15)	JC-607991Y	02-Mar-15*
Nb Sub Nabin Kumar Pun *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15)	JC-607992F	02-Mar-15*
Nb Sub/Clk Banwari Lal	JC-607971L	01-Mar-15
Nb Sub/Clk Millo Ram Yadav	JC-607985L	01-Apr-15
Nb Sub/Clk Mrinmoy Roy *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 15)	JC-608002X	01-Jun-15
Nb Sub Bhakta Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 15)	JC-607921A	06-Jul-15*
Nb Sub Karna Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 15)	JC-607930F	15-Apr-15*
Nb Sub Dum Bahadur Gurung	JC-608001P	01-Jun-15
Nb Sub Rudra Bahadur Gurung	JC-607922H	01-Aug-15
Nb Sub Shil Bahadur Thapa	JC-607854A	01-Nov-15
Nb Sub Narayan Thapa	JC-607865M	01-Nov-15
Nb Sub Devi Ram Magar	JC-607866P	01-Nov-15
Nb Sub Ran Bahadur Gurung *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 15)	JC-607867X	02-Nov-15*

To be Naib Subedar

Hav/Clk Manvendra Singh Negi	(No 5246529X now JC-608042Y)	01 Jan 15
Hav/Clk Islamudin	(No 5246536N now JC-608043F)	01 Jan 15
Hav Deman Singh Thapa	(No 5247165H now JC-608044K)	01 Jan 15
Hav Khum Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15)	(No 5246729N now JC-608045M)	07-Jan-15*
Hav Resham Sherchan	(No 5246861N now JC-608046P)	01-Jan-15
Hav Kum Bahadur Gurung	(No 5247298Y now JC-608047X)	01-Jan-15
Hav Surya Bahadur Thapa	(No 5247316W now JC-608048A)	01-Jan-15
Hav Jay Bahadur Pun Magar	(No 5247337M now JC-608049H)	01-Jan-15
Hav/Clk Prem Bahadur Thapa	(No 5246613X now JC-608050X)	01-Feb-15
Hav/Clk Ravindra Prasad Nath Thakur	(No 5247210H now JC-608051A)	01-Feb-15
Hav Harka Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15)	(No 5247171W now JC-608052H)	02-Feb-15*
Hav Birtha Tamang	(No 5247889A now JC-608053L)	01-Feb-15
Hav Man Bahadur Ale	(No 5246863Y now JC-608054N)	01-Feb-15
Hav Gyan Bahadur Thapa	(No 5247375H now JC-608055W)	01-Feb-15
Hav Sahadev Thapa	(No 5247403K now JC-608056Y)	01-Feb-15
Hav/Clk Anil Kumar MM *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5247717L now JC-608057F)	02-Mar-15*

Hav Dil Bahadur Pun	(No 5247178A now JC-608058K)	01-Mar-15
Hav Amrit Gurung *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5247883Y now JC-608059M)	02-Mar-15*
Hav Kushal Chandra Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5246766F now JC-608060F)	05-Mar-15*
Hav Keshar Bahadur Thapa Magar *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5247623N now JC-608061K)	02-Mar-15*
Hav Purna Bahadur *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5246876W now JC-608062M)	02-Mar-15*
Hav Hom Bahadur Shrestha *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5246911N now JC-608063P)	02-Mar-15*
Hav Durga Dhoj Gurung *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5246916M now JC-608064X)	02-Mar-15*
Hav Purna Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15)	(No 5247029M now JC-608065A)	02-Mar-15*
Hav Padam Bahadur Thapa	(No 5247435M now JC-608066H)	01-Mar-15
Hav/Clk Gajpal Singh Bisht	(No 5247947Y now JC-608067L)	01-Apr-15
Hav Anil Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 15)	(No 5247050P now JC-608068N)	15-Apr-15*
Hav Robin Thapa	(No 5247084H now JC-608069W)	01-Jun-15
Hav Dan Bahadur Thapa	(No 5246827N now JC-608070L)	01-Jul-15
Hav/Clk Tapeswar Kumar	(No 5247747H now JC-608071N)	12-Jul-15
Hav Debindra Rana	(No 5246880Y now JC-608072W)	01-Aug-15
Hav Roshan Gurung	(No 5247192M now JC-608073Y)	01-Nov-15
Hav Tika Ram Sinjali Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 15)	(No 5247235W now JC-608074F)	27-Dec-15*

To be Subedar Major

Sub Gyan Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 16)	JC-607723P	05-Jan-16*
Sub Dhan Bahadur Thapa	JC-607769X	01-Feb-16
Sub Ratna Bahadur Pun	JC-607786X	01-Feb-16
Sub Mohan Bahadur Gurung	JC-607782F	01-Feb-16
Sub Dhan Bahadur Shrestha	JC-607838H	01-Apr-16

To be Subedar

Nb Sub Govinda Bahadur Thapa	JC-607877F	01-Jan-16
Nb Sub Bhima Lal Bhusal	JC-607889W	01-Jan-16
Nb Sub Yam Bahadur Ale	JC-607896M	01-Jan-16
Nb Sub Ram Bahadur Thapa	JC-607868A	01-Jan-16
Nb Sub Yam Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 16)	JC-607966A	06-Jan-16*
Nb Sub/Clk Santosh Kumar *(Granted seniority in the rank of Sub wef 22 Dec 15)	JC-608003A	04-Feb-16
Nb Sub/Clk P Maruthappan	JC-608007W	01-Feb-16
Nb Sub Naba Raj Shrestha	JC-607860M	01-Feb-16

Nb Sub Keshar Rana	JC-607872H	01-Feb-16
Nb Sub Shuk Bahadur Thapa	JC-607897P	01-Feb-16
Nb Sub Keshab Thapa	JC-607915M	01-Feb-16
Nb Sub/Clk Anil Kumar *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 16)	JC-608019L	02-Mar-16
Nb Sub Yam Bahadur Rana	JC-608004H	01-Mar-16
Nb Sub Krishna Bahadur Roka	JC-607967H	01-Mar-16
Nb Sub Vijendra Bahadur	JC-607968L	01-Mar-16
Nb Sub Sukdeo Subba	JC-607969N	01-Mar-16
Nb Sub Ram Bahadur Thapa	JC-608005L	01-Apr-16
Nb Sub Lalit Bahadur Bhujel	JC-607970H	01-Apr-16
Nb Sub Lil Bahadur Pun *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 16)	JC-607880F	06-May-16*
Nb Sub Khem Bahadur Thapa	JC-608006N	01-Jun-16
Nb Sub Ob Bahadur Thapa, SM	JC-607981P	01-Jun-16
Nb Sub/Clk Clk Raghu Rai *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 16)	JC-608020A	04-Jul-16
Nb Sub/Clk Pramod Kumar	JC-608021H	01-Jul-16
Nb Sub/Clk Syed Muqeed Ahmed	JC-608023N	01-Jul-16
Nb Sub/Clk Pradip Kumar Dinda	JC-608028M	01-Jul-16
Nb Sub Ghan Shyam Thapa	JC-607885A	01-Jul-16
Nb Sub Bhim Bahadur Gurung	JC-607892W	01-Jul-16
Nb Sub Madan Mohan	JC-608009F	01-Jul-16
Nb Sub Sunil Gurung	JC-608010W	01-Jul-16
Nb Sub Lilamber Thapa	JC-607925W	01-Jul-16
Nb Sub Bir Bahadur Saru	JC-607893Y	01-Aug-16
Nb Sub Padam Bahadur Thapa	JC-607898X	01-Aug-16
Nb Sub Bishnu Bahadur Gurung	JC-607904A	01-Aug-16
Nb Sub Bir Bahadur Ghale	JC-607931K	01-Aug-16
Nb Sub Manoj Thapa	JC-607982X	01-Sep-16
Nb Sub Man Bahadur Thapa	JC-607926Y	01-Sep-16
Nb Sub Chura Bahadur Gaha	JC-607935A	01-Sep-16
Nb Sub Hari Bahadur Thapa	JC-607953H	01-Sep-16
Nb Sub Tek Prasad Gurung	JC-607919H	01-Oct-16
Nb Sub Ruk Bahadur Gurung	JC-607927F	01-Oct-16
Nb Sub Shyam Bahadur Gurung	JC-607929M	01-Oct-16
Nb Sub Hari Bahadur Thapa	JC-607986N	01-Oct-16
Nb Sub Prem Bahadur Gurung	JC-607954L	01-Oct-16
Nb Sub Vinesh Kumar Rana	JC-607936H	01-Oct-16
Nb Sub Bhim Prasad Gurung	JC-607937L	01-Oct-16
Nb Sub Tek Bahadur	JC-607932M	30-Oct-16
Nb Sub Pahal Singh Gurung	JC-608011Y	01-Nov-16

Nb Sub Dan Bahadur Kaucha	JC-608012F	01-Nov-16
Nb Sub Ganga Bahadur Galami	JC-608029P	01-Nov-16
Nb Sub Prakash Gurung	JC-608030K	01-Nov-16
Nb Sub Tham Bahadur Gurung	JC-608031M	01-Nov-16
Nb Sub Dirgha Bahadur Thapa	JC-607995P	01-Nov-16
Nb Sub Lil Bahadur Pun Chorhja	JC-607951X	01-Nov-16
Nb Sub Topindra Bahadur Roka	JC-607996X	01-Dec-16
Nb Sub Ana Bahadur Thapa	JC-608014M	01-Dec-16
Nb Sub Kesh Bahadur Gurung *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 16)	JC-607955N	01-Dec-16*
Nb Sub Vishnu Bahadur Burathoki	JC-607964P	01-Dec-16

To be Naib Subedar

Hav Pemba Dorjay Bhutia *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Nov 15)	(No 5247250L now JC-608075K)	01-Jan-16*
Hav Mahadev Singh Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 16)	(No 5246400K now JC-608076M)	12-Feb-16*
Hav Mani Bahadur	(No 5247219Y now JC-608077P)	01-Jan-16
Hav Hari Bahadur Thapa	(No 5247254F now JC-608078X)	01-Jan-16
Hav Narayan Thapa	(No 5247232H now JC-608079A)	01-Jan-16
Hav/Musician Ganga Bahadur	(No 5246667Y now JC-608080P)	01-Jan-16
Hav/Clk Amrik Singh	(No 5247325X now JC-608081X)	10-Jan-16
Hav/Clk Vinod Singh Bhandari	(No 5247968P now JC-608082A)	01-Feb-16
Hav Lum Bahadur Saru	(No 5247894L now JC-608083H)	01-Feb-16
Hav/Clk Bipin Bihari *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 16)	(No 5247976P now JC-608084L)	04-Mar-16*
Hav Kamal Kumar Pun	(No 5246576P now JC-608085N)	01-Mar-16
Hav Bhanu Kumar	(No 5246675X now JC-608086W)	01-Mar-16
Hav Man Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 16)	(No 5246823X now JC-608087Y)	02-Mar-16*
Hav Dam Prasad Thapa	(No 5247091Y now JC-608088F)	01-Mar-16
Hav Anuj Rana *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Mar 16)	(No 5247274P now JC-608089K)	06-Apr-16*
Hav Man Bahadur Gurung *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Mar 16)	(No 5247279N now JC-608090Y)	04-Apr-16*
Hav Khadka Bahadur Pun	(No 5246795W now JC-608091F)	01-Apr-16
Hav Prithivi Pal Pun	(No 5247098H now JC-608092K)	01-Apr-16
Hav Prem Bahadur Thapa *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 16)	(No 5247913L now JC-608093M)	14-May-16*
Hav Bharat Bahadur Gurung	(No 5247025W now JC-608094P)	01-Jun-16
Hav Sanjeet	(No 5247241K now JC-608095X)	01-Jun-16
Hav/Clk Awadesh Kumar Pathak	(No 5248153A now JC-608096A)	01-Jul-16
Hav/Clk Ganga Prasad	(No 5248155L now JC-608097H)	01-Jul-16
Hav/Clk Ram Nawal Chouhan	(No 5248179P now JC-608098L)	01-Jul-16

Hav/Clk Birendra Malik	(No 5248211Y now JC-608099N)	01-Jul-16
Hav Birendra kumar Thapa	(No 5247277H now JC-608100X)	01-Jul-16
Hav Khil Bahadur Gurung	(No 5247915W now JC-608101A)	01-Jul-16
Hav Kehar Singh Singjali	(No 5247957H now JC-608102H)	01-Jul-16
Hav Prabhu Thapa	(No 5247088Y now JC-608103L)	01-Jul-16
Hav Phatta Bahadur Manandhar	(No 5247267Y now JC-608104N)	01-Jul-16
Hav Dammar Bahadur Thapa	(No 5247299F now JC-608105W)	01-Aug-16
Hav Bharat Kumar Shrestha	(No 5248018M now JC-608106Y)	01-Aug-16
Hav Ravin Khandal	(No 5248026L now JC-608107F)	01-Aug-16
Hav Mandeep Tamang *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 16)	(No 5248034K now JC-608108K)	03-Sep-16*
Hav Suk Bahadur Gurung	(No 5246882K now JC-608109M)	01-Sep-16
Hav Purna Raj Thapa	(No 5246888L now JC-608110F)	01-Sep-16
Hav Suraj Thapa	(No 5247024N now JC-608111K)	01-Sep-16
Hav Dan Bahadur Thapa	(No 5247071L now JC-608112M)	01-Sep-16

9 GORKHA RIFLES

To be Subedar Major

Sub Hari Bahadur Khatri	JC-629807H	01-Oct-14
Sub Dipak Bahadur Chhetri	JC-629865M	01-Nov-14

To Be Subedar

Nb Sub Thaman Bahadur Thapa	JC-630038W	01-Jun-14
Nb Sub Lal Bahadur Thakuri	JC-630088F	01-Jul-14
Nb Sub Neer Bahadur Chhetri	JC-630042Y	01-Aug-14
Nb Sub Prem Bahadur Khadka	JC-630018H	01-Aug-14
Nb Sub (Clerk) Indra Mohan Swargiary	JC-629872H	01-Aug-14
Nb Sub (Clerk) Surender Kumar	JC-629877F	01-Aug-14
Nb Sub Narayan Bahadur Thapa	JC-629992F	01-Sep-14
Nb Sub Durga Bahadur KC	JC-630027K	01-Sep-14
Nb Sub Dhan Bahadur Thakuri	JC-630089K	01-Sep-14
Nb Sub Prem Bahadur Bam	JC-630000M	03-Sep-14*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2014)		
Nb Sub Chandra Bahadur Malla	JC-630001P	03-Sep-14*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2014)		
Nb Sub Mahadav Shah	JC-630028M	01-Oct-14
Nb Sub Khim Bahadur Malla	JC-630024W	01-Oct-14
Nb Sub Nar Bahadur K Chhetri	JC-630002X	01-Nov-14
Nb Sub Janak Bahadur Khatri	JC-630047X	01-Nov-14
Nb Sub Rishi Bahadur Thapa	JC-630048A	01-Nov-14
Nb Sub Khadak Bahadur Kuwar	JC-630031M	01-Nov-14

Nb Sub Krishna Bahadur Thapa	JC-630034A	05-Nov-14*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2014)		
Nb Sub Durga Bahadur Khadka	JC-630003A	01-Dec-14
Nb Sub Min Bahadur KC	JC-630035H	01-Dec-14
Nb Sub Laksha Bahadur Adhikari	JC-630032P	01-Dec-14
Nb Sub Prem Bahadur Chhetri	JC-630090Y	01-Dec-14
Nb Sub Tek Bahadur Chhetri	JC-630101A	01-Dec-14
To be Naib Subedar		
Hav Prem Bahadur Khadka Chhetri	No 5847632M now JC-630156K	01-Jul-14
Hav (Clerk) Gulveer Singh	No 5847374X now JC-630157M	01-Aug-14
Hav (Clerk) Bihari Lal	No 5847991F now JC-630158P	01-Aug-14
Hav (Clerk) Naresh Kumar	No 5848002Y now JC-630159X	01-Aug-14
Hav Hari Bahadur Chhetri	No 5847527W now JC-630160M	01-Aug-14
Hav Kumar Chhetri	No 5848087A now JC-630161P	01-Aug-14
Hav Ambar Kaji Adhikari	No 5847752L now JC-630162X	03-Sep-14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2014)		
Hav Nar Bahadur Kunwar	No 5847854F now JC-630163A	03-Sep-14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2014)		
Hav Lekh Bahadur Shahi	No 5847848N now JC-630164H	01-Sep-14
Hav Krishna Prasad Regmi	No 5847633P now JC-630165L	01-Sep-14
Hav Ajay Kumar	No 5847479F now JC-630166N	01-Sep-14
Hav Som Bahadur Khadka	No 5848024X now JC-630167W	04-Oct-14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014)		
Hav Sushil Kumar Chhetri	No 5847927H now JC-630168Y	01-Nov-14
Hav Jagat Bahadur Bohora	No 5847434F now JC-630169F	01-Nov-14
Hav Hari Bahadur KC	No 5847574N now JC-630170W	01-Nov-14
Hav Yam Bahadur Basnet	No 5848064Y now JC-630171Y	01-Nov-14
Hav Surender Karki	No 5847474K now JC-630172F	05-Nov-14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014)		
Hav Keshar Bahadur Bhandari	No 5847649A now JC-630173K	01-Dec-14
Hav Sanjay Mall	No 5847293X now JC-630174M	01-Dec-14
Hav Tejendra Singh Thakuri	No 5848028N now JC-630175P	01-Dec-14
Hav Nar Bahadur Khadka	No 5848140A now JC-630176X	01-Dec-14
Hav Samar Bahadur Chhetri	No 5848146F now JC-630177A	01-Dec-14
Hav Rudra Bahadur Karki	No 5847651X now JC-630178H	01-Dec-14
To be Subedar Major		
Sub Dhabal Bahadur Karki	JC-629822X	01-Feb-15
Sub Ramesh Kumar Thapa	JC-629936H	02-Mar-15*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Mar 15)		
Sub Laxman Singh Thapa	JC-629794W	01-Oct-15

Sub Bhim Bahadur Bhandari	JC-629875W	01-Nov-15
Sub Hem Chandra Koirala	JC-629793N	01-Dec-15

To be Subedar

Nb Sub Om Bahadur Khattri	JC-630011Y	01-Jan-15
Nb Sub Chandra Kiran Shahi	JC-630012F	01-Jan-15
Nb Sub Gobinda Bahadur Khattri	JC-630025Y	01-Jan-15
Nb Sub Durga Bahadur Kunwar	JC-630037N	01-Jan-15
Nb Sub Beg Bahadur KC	JC-630039Y	01-Jan-15
Nb Sub Rit Bahadur Basnet	JC-630056Y	01-Jan-15
Nb Sub Padam Bahadur Thapa	JC-630057F	01-Jan-15
Nb Sub Kamal Vikram Sen	JC-630049H	01-Jan-15
Nb Sub Mit Bahadur Karki	JC-630050X	01-Jan-15
Nb Sub Bel Bahadur Thapa	JC-630102H	01-Jan-15
Nb Sub Dol Bahadur Gharti	JC-630107F	01-Jan-15
Nb Sub Ganga Bahadur Thapa	JC-630108K	01-Jan-15
Nb Sub Prem Bahadur Adhikari	JC-630109M	01-Jan-15
Nb Sub (Clerk) M Kathirvel Murugan	JC-629898X	01-Jan-15
Nb Sub Tul Bahadur Thapa	JC-630043F	02-Jan-15*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2014)		
Nb Sub Youba Raj Chhetri	JC-630026F	01-Feb-15
Nb Sub Kishan Chhetri	JC-630033X	01-Feb-15
Nb Sub Kumar Chhetry	JC-630058K	01-Feb-15
Nb Sub Krishna Bahadur Rimal	JC-630066H	01-Feb-15
Nb Sub Kul Bahadur Khatri	JC-630041W	02-Feb-15*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2015)		
Nb Sub Top Bahadur Malla	JC-630051A	01-Feb-15
Nb Sub Randhir Kumar	JC-630073Y	01-Mar-15
Nb Sub Hari Karna Raya Majhi Chhetri	JC-630040N	02-Mar-15*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2015)		
Nb Sub Rajendra Chhetri	JC-630052H	07-Mar-15*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2015)		
Nb Sub Rohit Chhetri	JC-630079A	01-Apr-15
Nb Sub Megh Nath Kunwar	JC-630065A	01-May-15
Nb Sub Gyan Bahadur Tondon	JC-630067L	01-May-15
Nb Sub Ratan Mukhia	JC-630044K	30-Jul-15*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 15 Jul 2015)		
Nb Sub Bom Bahadur Chhetri	JC-630045M	01-Oct-15
Nb Sub Dev Bahadur Bhandari	JC-630063P	01-Dec-15
Nb Sub (Clerk) Puran Singh	JC-629902P	01-Dec-15

To be Naib Subedar		
Hav (Clerk) Deepak Khanal	No 5848003F now JC-630179L	01-Jan-15
Hav Min Bahadur Thapa	No 5847587L now JC-630180A	01-Jan-15
Hav Dor Bahadur Khatri	No 5847528Y now JC-630181H	01-Jan-15
Hav Khadga Bahadur Shahi	No 5847695P now JC-630182L	01-Jan-15
Hav Nir Bahadur Chhetri	No 5848050Y now JC-630183N	01-Jan-15
Hav Sujindra Bahadur Chhetri	No 5848069X now JC-630184W	01-Jan-15
Hav Bhupendra Limichana	No 5847711F now JC-630185Y	01-Jan-15
Hav Gir Bahadur KC	No 5847701X now JC-630186F	01-Jan-15
Hav Cheta Bahadur Basnet	No 5848106A now JC-630187K	02-Feb-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2015)		
Hav Min Bahadur Chhetri	No 5852080N now JC-630188M	01-Jan-15
Hav Bijoy Chhetri	No 5847688Y now JC-630189P	01-Jan-15
Hav Krishna Bahadur Khadka	No 5848102K now JC-630190K	01-Jan-15
Hav Tuk Bahadur Khan	No 5848154L now JC-630191M	01-Jan-15
Hav Khem Raj Gautam	No 5848167X now JC-630192P	02-Feb-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2015)		
Hav Vijay Singh, SM	No 5847925X now JC-630193X	01-Feb-15
Hav Paras Chhetri	No 5847995W now JC-630194A	01-Feb-15
Hav Bhabindra Bahadur Chhetri	No 5848148M now JC-630195H	06-Feb-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2015)		
Hav Prem Bahadur Chhetri	No 5848182A now JC-630196L	01-Feb-15
Hav Nabin Kumar Khadka	No 5847789M now JC-630197N	27-Mar-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 14 Feb 2015)		
Hav Arjun Bahadur Khand	No 5847775K now JC-630198W	27-Mar-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2015)		
Hav Khum Bahadur Basnet	No 5848169H now JC-630199Y	02-Mar-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2015)		
Hav Manoj Chhetri	No 5848184X now JC-630200H	02-Mar-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2015)		
Hav Bharat Bahadur Khatri	No 5848114Y now JC-630201L	21-Apr-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2015)		
Hav Kirtiman Khattri	No 5847562Y now JC-630202N	01-May-15
Hav Gupta Bahadur Singh	No 5847613F now JC-630203W	01-May-15
Rect (RT) Deepak Raj Pathi	No 630204Y now JC-630204Y	26-Sep-15
Hav Nirmal Kumar Khadka	No 5848067M now JC-630205F	30-Jul-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2015)		
Hav Tak Bahadur Bhandari	No 5847705N now JC-630206K	18-Aug-15*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Jul 2015)		
Hav Kamal Bahadur KC	No 5848176M now JC-630207M	01-Oct-15
Hav (Clerk) Vijendra Kumar	No 5753759W now JC-630208P	01-Dec-15
Hav Indra Bahadur Karki	No 5848181X now JC-630209X	01-Dec-15

To be Subedar Major

Sub Bhavindra Vikram Shahi	JC-629867X	01-Jan-16
Sub Ravindra Singh Bhandari	JC-629913F	01-Feb-16
Sub Lekh Bahadur KC	JC-629927F	02-Feb-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Feb 2016)		
Sub Tilak Paudel	JC-629960Y	01-Mar-16
Sub Man Bahadur Chhetry, SC	JC-629949A	22-Mar-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 15 Feb 2016)		
Sub Bhakta Bahadur Godar	JC-629935A	01-Oct-16
Sub Lal Bahadur Chhetri	JC-629925W	28-Dec-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Dec 2016)		

To be Subedar

Nb Sub Nar Bahadur Khattri	JC-630072W	01-01-16
Nb Sub Surendra Kumar	JC-630078X	03-01-16
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 31 Dec 2015)		
Nb Sub (Clerk) Om Prakash Tewari	JC-629917X	30-01-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 22 Dec 2015)		
Nb Sub Pradeep Khattri	JC-630076M	01-Feb-16
Nb Sub Min Bahadur Panta	JC-630077P	01-Feb-16
Nb Sub Bel Bahadur Thapa	JC-630064X	01-Mar-16
Nb Sub Naveen Mukhia	JC-630074F	01-Mar-16
Nb Sub Dhan Bahadur Bhandari	JC-630075K	01-Mar-16
Nb Sub Birendra Kumar Malla Thakuri	JC-630097H	01-Mar-16
Nb Sub Arvin Kumar	JC-630110F	01-May-16
Nb Sub Resham Bahadur Adhikari	JC-630081X	01-Jun-16
Nb Sub (Clerk) Sabu R	JC-629939W	01-Jun-16
Nb Sub (Clerk) Pramod Kumar Chourasia	JC-629961F	01-Jun-16
Nb Sub Ram Chandra Adhikari	JC-630053L	14-Jun-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2016)		
Nb Sub Thakur Bam Malla	JC-630123Y	01-Jul-16
Nb Sub Dhurba Bahadur Rawal	JC-630130P	01-Jul-16
Nb Sub Kul Bahadur Thapa	JC-630131X	01-Jul-16
Nb Sub Rudra Bahadur Thapa, SM	JC-630134L	01-Jul-16
Nb Sub Lakchmana Singh	JC-630137Y	01-Jul-16
Nb Sub Jagat Malla	JC-630145X	01-Jul-16
Nb Sub Ambar Kaji Adhikari	JC-630162X	01-Jul-16
Nb Sub Yam Bahadur Baniya	JC-630059M	01-Jul-16
Nb Sub Jit Bahadur Chhetri	JC-630060F	01-Jul-16
Nb Sub Prem Bahadur Khadka	JC-630061K	01-Jul-16
Nb Sub Harka Bahadur Poudel Chhetri	JC-630093M	01-Jul-16

Nb Sub (Clerk) Ravi Bhushan Singh	JC-629966A	01-Jul-16
Nb Sub (Clerk) Yadagiri Tatayya Naidu	JC-630006N	01-Jul-16
Nb Sub (Clerk) Suraj Mal	JC-630106Y	01-Jul-16
Nb Sub (Clerk) Rakesh Kumar Dwivedi	JC-630129A	01-Jul-16
Nb Sub Ram Chandra Adhikari	JC-630062M	05-Aug-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2016)		
Nb Sub (Clerk) Shiv Nandan Singh Yadav	JC-630142K	20-Aug-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2016)		
Nb Sub (Clerk) Deepak Singh Negi	JC-630143M	01-Aug-16
Nb Sub (Clerk) Rajesh Singh Rana	JC-630144P	08-Aug-16*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2016)		
Nb Sub (Clerk) U Saimon Singha	JC-630153W	01-Sep-16
Nb Sub (Clerk) Gulveer Singh	JC-630157M	01-Sep-16
Nb Sub Nar Bahadur Kunwar	JC-630163A	01-Sep-16
Nb Sub Lek Bahadur Shahi	JC-630164H	01-Sep-16
Nb Sub Sushil Kumar Chhetri	JC-630168Y	01-Sep-16
Nb Sub Tejendra Singh Thakuri	JC-630175P	01-Sep-16
Nb Sub Nir Bahadur Chhetri	JC-630183N	01-Sep-16
Nb Sub Nirmal Kumar Khadka	JC-630205F	01-Sep-16
Nb Sub Sujindra Bahadur Chhetri	JC-630184W	01-Sep-16
Nb Sub Lok Bahadur Thapa	JC-630068N	01-Sep-16
Nb Sub Keshar Bahadur Shahi	JC-630111K	01-Sep-16
Nb Sub Cheta Bahadur Basnet	JC-630187K	01-Oct-16
Nb Sub Khem Raj Gautam	JC-630192P	01-Oct-16
Nb Sub Bhabindra Bahadur Chhetri	JC-630195H	01-Oct-16
Nb Sub Ganga Bahadur Basnet	JC-630069W	01-Oct-16
Nb Sub Yamendra Sen	JC-630070L	01-Oct-16
Nb Sub Binod Bahadur Laudari	JC-630095X	01-Oct-16
Nb Sub Bishnu Hari Paudel	JC-630099N	01-Oct-16
Nb Sub Prakash Neupane	JC-630100X	01-Oct-16
Nb Sub Dil Bahadur GT	JC-630115A	01-Oct-16
Nb Sub Ghan Bahadur Chhetri	JC-630080P	01-Oct-16
Nb Sub (Clerk) Bihari Lal	JC-630158P	01-Oct-16
Nb Sub Khum Bahadur Basnet	JC-630199Y	01-Nov-16
Nb Sub Krishna Bahadur Khatri	JC-630087Y	01-Nov-16
Nb Sub Rudra Bahadur Thapa	JC-630104N	01-Nov-16
Nb Sub Hum Bahadur Godar	JC-630116H	01-Nov-16

Nb Sub Mitra Lal Nyaupane	JC-630086W	01-Nov-16
Nb Sub Rajesh Khattri	JC-630112M	23-Nov-16
Nb Sub Radjit Malla	JC-630096A	01-Dec-16
Nb Sub Rishi Ram Gautam	JC-630105W	01-Dec-16
Nb Sub Uday Chandra Dahal	JC-630114X	01-Dec-16
Nb Sub Tek Bahadur	JC-630091F	01-Dec-16
Nb Sub Amar Bahadur Khatri	JC-630113P	25-Dec-16

To be Naib Subedar

Hav Gyan Bahadur Chhetri	No 5848218A now JC-630210M	03-Jan-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31 Dec 2015)		
Hav Dan Bahadur Chhetri	No 5847486Y now JC-630211P	18-Jan-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2016)		
Hav (Clerk) Harinder Kumar	No 5848162Y now JC-630212X	12-Feb-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Jan 2016)		
Hav Shankar Khadka	No 5847683A now JC-630213A	01-Feb-16
Hav Ganga Bahadur Khadka	No 5847656W now JC-630214H	01-Feb-16
Hav Ran Bahadur Bhandari	No 5847675F now JC-630215L	25-Feb-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2016)		
Hav Surendra Singh Chhetri	No 5847903Y now JC-630216N	01-Mar-16
Hav Satish	No 5847913H now JC-630217W	01-Mar-16
Hav Bhoj Bahadur Mall	No 5848044L now JC-630218Y	01-Mar-16
Hav Krishna Raj Chhimal	No 5847940M now JC-630219F	02-May-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2016)		
Hav (Clerk) Virendra Kumar Yadao	No 5848163F now JC-630220W	03-Jun-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2016)		
Hav (Clerk) Mohan Singh	No 5848190L now JC-630221Y	01-Jun-16
Hav Tiger Jumli	No 5847477W now JC-630222F	01-Jun-16
Hav (Clerk) Dilvar Singh	No 5848193Y now JC-630223K	05-Jul-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2016)		
Hav (Clerk) Satish Kumar Rai	No 5848285L now JC-630224M	01-Jul-16
Hav (Clerk) Raj Kumar	No 5848342F now JC-630225P	01-Jul-16
Hav (Clerk) Ram Chandra	No 5848351H now JC-630226X	01-Jul-16
Hav Hum Bahadur Chhetri	No 5847665X now JC-630227A	01-Jul-16
Hav Tek Bahadur Khattri	No 5847672N now JC-630228H	01-Jul-16
Hav Yam Bahadur Bista Khatri	No 5848205H now JC-630229L	01-Jul-16
Hav Surya Bahadur Khatri	No 5848202P now JC-630230A	01-Jul-16
Hav Narendra Kumar GC	No 5848208W now JC-630231H	01-Jul-16

Hav Sanjaya Bikram Khatri	No 5848410K now JC-630232L	01-Jul-16
Hav Man Bahadur Bhandari	No 5848210N now JC-630233N	01-Jul-16
Hav Padam Bahadur Regmi	No 5848240L now JC-630234W	01-Jul-16
Hav Shaligram Bhandari	No 5848264P now JC-630235Y	01-Jul-16
Hav Raju Kumar Kunwar	No 5848279X now JC-630236F	01-Jul-16
Hav Surya Bahadur Hamal	No 5848280M now JC-630237K	01-Jul-16
Hav Tara Kiran Shahi	No 5848283A now JC-630238M	01-Jul-16
Hav (Clerk) Sawant Rajendra Shankar	No 5848341Y now JC-630239P	01-Aug-16
Hav (Clerk) Vinod Kumar Saini	No 5848442M now JC-630240K	01-Aug-16
Hav Gopal Bahadur Chhetri	No 5847654L now JC-630241M	04-Aug-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2016)		
Hav (Clerk) Pradip Kumar	No 5848361M now JC-630242P	09-Sep-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2016)		
Hav (Clerk) Netrapal Singh	No 5848598K now JC-630243X	01-Sep-16
Hav (Clerk) Gopal Bahadur	No 5848601Y now JC-630244A	01-Sep-16
Hav Dharam Vir Singh	No 5847988A now JC-630245H	01-Sep-16
Hav Santa Bahadur Khadka	No 5847944H now JC-630246L	01-Sep-16
Hav Nal Bahadur Kunwar	No 5848284A now JC-630247N	01-Sep-16
Hav Tek Bahadur Adhikari	No 5848506M now JC-630248W	01-Sep-16
Hav Thakur Prasad Gnawali	No 5848291Y now JC-630249Y	01-Sep-16
Hav Dhan Prasad Paudel	No 5848289F now JC-630250N	01-Sep-16
Hav Om Bahadur Chhetri	No 5848306W now JC-630251W	01-Sep-16
Hav Amar Deep Chhetri	No 5848346X now JC-630252Y	01-Sep-16
Hav Puran Singh	No 5848363X now JC-630253F	01-Sep-16
Hav (Clerk) Nityanand Singh	No 5848599M now JC-630254K	01-Oct-16
Hav Jitendra Kumar	No 5847924P now JC-630255M	01-Oct-16
Hav Youn Bahadur Khatri	No 5847706W now JC-630256P	01-Oct-16
Hav Sanju Khadka	No 5847742F now JC-630257X	01-Oct-16
Hav Yam Bahadur Chhetri	No 5847761M now JC-630258A	01-Oct-16
Hav Shamser Bahadur Thapa	No 5848508X now JC-630259H	01-Oct-16
Hav Bidur Bahadur Kunwar	No 5847945L now JC-630260X	01-Oct-16
Hav Durga Bahadur Roka Chhetri	No 5848269N now JC-630261A	01-Oct-16
Hav Reem Bahadur Hamal Thakuri	No 5848382H now JC-630262H	01-Oct-16
Hav Amar Bahadur Chhetri	No 5848451N now JC-630263L	01-Oct-16
Hav Govinda Bahadur Mahat	No 5848674L now JC-630264N	01-Oct-16
Hav Amar Bahadur Chhetri	No 5848307Y now JC-630265W	01-Oct-16
Hav Babindra Dhoj Malla	No 5847795A now JC-630266Y	01-Nov-16
Hav Lekh Bahadur Khatri	No 5848311F now JC-630267F	01-Nov-16
Hav Lok Bahadur Shahi	No 5848450L now JC-630268K	01-Nov-16
Hav Tikendra Khadka	No 5848545L now JC-630269M	01-Nov-16
Hav Mam Bahadur Kathyat	No 5848792Y now JC-630270F	01-Nov-16

Hav Man Bahadur Bhandari	No 5848298H now JC-630271K	01-Nov-16
Hav Padam Bahadur Sahi	No 5847948Y now JC-630272M	14-Dec-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Nov 2016)		
Hav Shiv Kumar Jyu	No 5847871F now JC-630273P	15-Dec-16*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 23 Nov 2016)		
Hav Dumber Bahadur Chand	No 5847823F now JC-630274X	02-Jan-17*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2016)		
Hav Hari Babu Kunwar	No 5848323F now JC-630275A	01-Dec-16
Hav Milan Chhetri	No 5848737H now JC-630276H	01-Dec-16
Hav Dipak Bahadur Khatri	No 5848780K now JC-630277L	01-Dec-16
Hav Krishna Chhetri	No 5847826P now JC-630278N	02-Jan-17*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Dec 2016)		
Hav Phatik Bahadur Khatri	No 5848809F now JC-630279W	25-Dec-16

T D PRASHANTH RAO
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 193, dated 27th July 2017—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be 2/Lt w.e.f 10 Jun 1989)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 84 Regular Course published in the Gazette of India dated 17 Mar 1990 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :—

For	VISHWASRAO SANJAY PRATAP SINGH	IC-48621W	INF
Read	SANJAY PRATAPSINGH VISHWASRAO	IC-48621W	INF

ABHISHEK TEWARY
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 194, dated 28th July 2017—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lt w.e.f 12 Jun 2004

CORRIGENDA

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 114 Regular Course published in the Gazette of India dated 09 Apr 2005 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :—

For	SANDEEP DHANKAR	IC-64063K	MECH INF
Read	SANDEEP DHANKHAR	IC-64063K	MECH INF

To be 2/2Lt w.e.f 11 Jun 1994

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 94 Regular Course published in the Gazette of India dated 08 Apr 1995 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :—

For	JITENDRA DAHIYA	IC-52814	ASC
Read	JITENDER DAHIYA	IC-52814	ASC

To be 2/Lt w.e.f 09 Jun 1990

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 86 Regular Course published in the Gazette of India dated 01 Jun 1991 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :—

For	VIVEK PATHAK	IC-49562F	SIGS
Read	VIVEK PHATAK	IC-49562F	SIGS

To be 2/2Lt w.e.f 07 Dec 1996

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 99 Regular Course published in the Gazette of India dated 01 May 1999 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :—

For	GURKIRPAL SINGH	IC-56787M	ASC
Read	GURKIRPAL SINGH GILL	IC-56787M	ASC

To be 2/Lt w.e.f 14 Jun 1986

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 78 Regular Course published in the Gazette of India dated 29 Sep 1988 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :—

For	PRABHU MAKARAND VASANT	IC-43960M	ARTY
Read	MAKARAND VASANT PRABHU	IC-43960M	ARTY

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR

SAGAYA RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA RAJ

Date: 2017.09.23

10:54:16 +05'30'